

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 139
No. 251]	DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939	[N.C.T.D. No. 139

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

foUk (jktLo&1) foHkkx

vf/k l puk

दिल्ली, 30 जून, 2017

I- 11@2017&jkT; dj %nj%

Qk- I- 3%15%@foRr %jkt-&1%@2017&18@Mh, l&vi@381.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (11), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, यह अधिसूचित करते हैं कि राज्य कर, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट वर्णन की सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति पर, जो स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सेवा वर्गीकरण स्कीम के अध्याय, खंड या शीर्ष के अंतर्गत आती है, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट दर पर उद्गृहीत किया जाएगा,—

सारणी

क्र.सं.	अध्याय, खंड या शीर्ष	सेवा वर्णन	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अध्याय 99	सभी सेवाएं		

2	खंड 5	संनिर्माण सेवाएं		
3	शीर्ष 9954 (संनिर्माण सेवाएं)	(i) परिक्षेत्र, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण, जिसके अंतर्गत पूर्णतः या भागतः क्रेता को विक्रय के लिए आशयित परिक्षेत्र या भवन भी है, सिवाय वहां के, जहां अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् या उसके प्रथम अधिभोग के पश्चात्, जो भी पहले हो, संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है। (इस सेवा के मूल्यांकन के लिए इस अधिसूचना के पैरा 2 के उपबंध लागू होंगे) (ii) दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड 119 में यथापरिभाषित संकर्म संविदा का संयुक्त प्रदाय (iii) उपरोक्त (i) और (ii) से भिन्न संनिर्माण सेवाएं	9	-
4	खंड 6	वितरणात्मक व्यापार सेवाएं ; आवास, खाद्य और सुपेय सेवा ; परिवहन सेवा ; गैस और विद्युत वितरण सेवाएं		
5	शीर्ष 9961	थोक विक्रय व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण- इस सेवा के अंतर्गत मालों का विक्रय या क्रय नहीं है किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित है— - कमीशन अभिकर्ताओं, दलालों और नीलामीकर्ताओं तथा अन्य सभी ऐसे व्यापारियों की सेवाएं, जो किसी फीस या कमीशन के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच थोक वाणिज्य संव्यवहारों का मोल भाव करते हैं ; - इलैक्ट्रानिक थोक अभिकर्ताओं और दलालों की सेवाओं ; - थोक दलाली गृहों की सेवाएं	9	-
6	शीर्ष 9962	फुटकर व्यापार में सेवाएं। स्पष्टीकरण- इस सेवा के अंतर्गत माल का क्रय या विक्रय नहीं आता है।	9	-
7	शीर्ष 9963 (आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं)	(i) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, इंटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद,	6	-

		आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में न तो वातानुकूलन या केंद्रीय वायु तापन की सुविधा है और न ही मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहोलिक लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।		
		(ii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें एक हजार रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु दो हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो। स्पष्टीकरण : “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।	6	-
		(iii) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, ईटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहोली लिकर परोसने के लिए अनुज्ञप्ति या परमिट है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।	9	-
		(iv) ऐसे माल की, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या सुपेय है, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रूप में, चाहे जो भी हो, पूर्ति, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, किसी रेस्टोरेंट, ईटिंग ज्वाइंट, जिसके अंतर्गत मेस, कैंटीन भी है, द्वारा नकद, आस्थगित संदाय या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जिसके पास वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्थापन के किसी भाग में वातानुकूलन या केंद्रीय वायु	9	-

	तापन की सुविधा है।		
	(v) बाह्य कैटरिंग में, किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, कोई पूर्ति, जिसमें माल, ऐसी बाह्य कैटरिंग के भाग के रूप में खाद्य या मानवीय उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) और ऐसी पूर्ति या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।	9	-
	(vi) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें दो हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक के आवास की यूनिट किन्तु सात हजार पांच सौ रुपए प्रति यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य की टैरिफ घोषित किया हो। स्पष्टीकरण : “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।	9	-
	(vii) ऐसे माल की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, किन्तु जो खाद्य मानवीय उपभोग की किसी अन्य वस्तु या किसी सुपेय (चाहे वह मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर है या नहीं) तक सीमित नहीं है, जहां ऐसी पूर्ति या सेवा, परिसरों (जिनमें होटल, कन्वेंसन केंद्र, क्लब, पंडाल, शामियाना या कोई अन्य स्थान, जहां विशेष रूप से समारोह आयोजित करने के लिए व्यवस्था की जाती है), को किराए पर देने के साथ-साथ नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की जाती है।	9	-
	(viii) आवासीय या वासा प्रयोजनों के लिए होटलों, जिनके अंतर्गत पांच सितारा होटल भी हैं, सरायों, अतिथि गृहों, क्लबों, शिविर स्थलों, या अन्य वाणिज्यिक स्थानों में आवास, जिन्हें सात हजार पांच सौ रुपए और उससे अधिक प्रति	14	-

		यूनिट प्रतिदिन से कम या समतुल्य के आवास यूनिट की टैरिफ घोषित किया हो। स्पष्टीकरण : “घोषित टैरिफ” के अंतर्गत आवास (ठहरने के लिए किराए पर दिया गया) की यूनिट में उपलब्ध कराई गई सभी सुख-सुविधाओं, जैसे फर्नीचर, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य सुख-सुविधाएं, के लिए प्रभार आते हैं किन्तु ऐसी यूनिट के लिए प्रकाशित प्रभारों पर प्रस्थापित किसी मितिकाटा को अपवर्जित किए बिना।		
		(ix) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) और (viii) से भिन्न आवास, खाद्य और सुपेय सेवाएं।	9	-
8	शीर्ष 9964 (यात्री परिवहन सेवाएं)	(i) प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच में रेल द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल के संबंध में प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) निम्नलिखित के द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन- (क) मोटर कैब से भिन्न वातानुकूलित संविदा गाड़ी ; (ख) वातानुकूलित मंजिली गाड़ी ; (ग) रेडियो टैक्सी ; स्पष्टीकरण : (क) संविदा गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (7) में है। (ख) मंजिली गाड़ी का वही अर्थ है जो उसका मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (40) में है। (ग) “रेडियो टैक्सी” से ऐसी टैक्सी, जिसके अंतर्गत कोई रेडियो कैब भी है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ द्विमार्गी रेडियो संसूचना में है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) या साधारण पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) का प्रयोग करते हुए ट्रैकिंग के लिए समर्थ है।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		(iii) इकोनोमी श्रेणी में वायुयान द्वारा सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यथा-अधिसूचित क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम विमानपत्तन से यात्रा प्रारंभ करते या वहां समाप्त करते हुए, सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(v) इकोनोमी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में सामान के साथ या सामान के बिना यात्रियों का परिवहन।	6	-
		(vi) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है, वहां मोटर कैब द्वारा यात्रियों का परिवहन।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) और (vi) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	-
9	शीर्ष 9965 (माल परिवहन सेवाएं)	(i) रेल द्वारा माल का परिवहन (इस शीर्ष के अधीन नीचे क्र.सं. (iv) पर विनिर्दिष्ट सेवा से भिन्न)	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में माल की बाबत प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय सेवा की पूर्ति पर केंद्रीय कर या एकीकृत कर का संदाय करने के लिए उपयोजित नहीं किया जाता है।
		(ii) जलयान में माल का परिवहन	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल (पोतों, जलयानों, जिनके अंतर्गत माल जहाज और टैंकर भी हैं, पर से भिन्न) पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iii) माल (जिसके अंतर्गत वैयक्तिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया घरेलू माल भी है) के परिवहन के संबंध में परिवहन अभिकरण की	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का

		सेवाएं। स्पष्टीकरण : “माल परिवहन अधिकरण” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सड़क से माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और प्रेषण नोट, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।		प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(iv) भारतीय रेल से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों में माल का परिवहन।	6	-
		(v) उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।	9	-
10	शीर्ष 9966 (परिवहन यानों की भाटक सेवा)	(i) जहां ईंधन की लागत सेवा प्राप्तकर्ता से प्रभारित प्रतिफल में सम्मिलित की जाती है वहां मोटर कैब को किराए पर देना।	2.5	बशर्ते माल की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न प्रचालकों के साथ या उनके बिना परिवहन यानों के भाटक सेवा	9	-
11	शीर्ष 9967 (परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं)	(i) मालों के परिवहन के संबंध में माल परिवहन अधिकरण (जीटीए) की सेवाएं (जिसके अंतर्गत घर गृहस्थी का उपयोग किया गया माल है। स्पष्टीकरण- “माल परिवहन अधिकरण” से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है और पारेषण नोट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी करता है।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं	9	-
12	शीर्ष 9968	डाक और कुरियर सेवाएं	9	-
13	शीर्ष 9969	विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं	9	-
14	खंड 7	वित्तीय और संबंधित सेवाएं; भू-संपदा सेवाएं और भाटक तथा पट्टा सेवाएं		
15	शीर्ष 9971 (वित्तीय और संबंधित सेवाएं)	(i) किसी चिट के संबंध में चिटफंड के फोरमैन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्पष्टीकरण- 1. “चिट” से संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे चिट, चिटफंड, चिट्टी, कुरी के नाम से ज्ञात हो या किसी भी नाम से ज्ञात हो या जिसके अधीन व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के साथ करार करता है कि उनमें से प्रत्येक निश्चित अवधि में आवधिक किस्तों के माध्यम से कतिपय धनराशि का	6	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

	अभिदाय करेगा (या उसके स्थान पर निश्चित मात्रा में अनाज) और प्रत्येक अभिदाता उसकी बारी में जिसका लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या ऐसी रीति में जो चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाए, इनामी रकम का हकदार होगा। 2. "चिटफंड का फोरमैन" का वही अर्थ होगा जो चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड (ज) में "फोरमैन" पद का है।		
	(ii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	राज्य कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
	(iii) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	राज्य कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
	(iv) दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है; (ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; (ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट पर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।		
		(v) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) से भिन्न वित्तीय और संबंधित सेवाएं	9	-
16	शीर्ष 9972	भू-संपदा सेवाएं	9	-
17	शीर्ष 9973	(i) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	6	-
		(ii) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना	9	-
		(iii) किसी प्रयोजन के लिए किन्हीं मालों के उपयोग के अधिकार का, नकद, अस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल पर अंतरण।	राज्य कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(iv) माल में किसी अधिकार या माल में अविभक्त अंश का उनके हक का अंतरण किए बिना अंतरण	राज्य कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वलित है।	-
		(v) दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 (च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के माध्यम से अनुसूचित वायु परिवहन सेवा या अनुसूचित एयर कार्गो सेवा के प्रचालन के लिए किसी प्रचालक द्वारा वायुयानों को पट्टे पर देना। स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए,- (क) "प्रचालक" से कोई व्यक्ति, संगठन या उपक्रम जो वायुयान प्रचालनों में लगा हुआ है या वायुयान प्रचालनों में लगे होने के लिए प्रस्ताव करता है, अभिप्रेत है;	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें)

		(ख) "अनुसूचित वायु परिवहन सेवा" से किसी प्रकाशित समय सारणी के अनुसार समान दो या अधिक स्थानों के बीच प्रचालित या नियमित या प्रायिक उड़ानें हैं जो वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती है, प्रत्येक उड़ान जनता के सदस्यों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध है, की कोई वायु परिवहन सेवा अभिप्रेत है; (ग) "अनुसूचित एयर कार्गो सेवा" से प्रकाशित समय सारणी के आधार पर या उड़ानें जो इतनी नियमित या प्रायिक हैं कि वे पहचानी जा सकने योग्य क्रमबद्ध श्रृंखला का गठन करती हैं, के अनुसूचित आधार पर कार्गो या डाक का वायु परिवहन अभिप्रेत है, जो यात्रियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है।		
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न प्रचालक सहित या उसके बिना पट्टा या भाटक सेवाएं	राज्य कर की समान दर जो वैसे ही मालों के लिए लागू है जिनमें मालों के हक का अंतरण अंतर्वर्तित है।	-
18	खंड 8	कारोबार और उत्पादन सेवाएं		
19	शीर्ष 9981	अनुसंधान और विकास सेवाएं	9	-
20	शीर्ष 9982	विधिक और लेखांकन सेवाएं	9	-
21	शीर्ष 9983 (अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं)	(i) प्रिन्ट मीडिया के लिए विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय	2.5	-
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य व्यवसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं	9	-
22	शीर्ष 9984	दूरसंचार, प्रसारण और सूचना पूर्ति सेवाएं	9	-
23	शीर्ष 9985 (समर्थनकारी सेवाएं)	(i) दूर प्रचालक सेवाओं की पूर्ति स्पष्टीकरण- "दूर प्रचालक" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो दूरों की योजना बनाने, उनकी शेड्यूलिंग, आयोजन, प्रबंध करने (जिसके अंतर्गत आवास, दर्शनीय स्थल या अन्य वैसे ही सेवाएं हो सकेंगी) के कारोबार में परिवहन के किसी ढंग द्वारा लगा हुआ है और जिसके अंतर्गत दूरों के प्रचालन के कारोबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति है	2.5	1. बशर्ते सेवा की पूर्ति के लिए माल पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय नहीं लिया गया है। (कृपया स्पष्टीकरण सं. (iv) का निर्देश करें) 2. इस सेवा की पूर्ति के लिए जारी किया गया बीजक यह उपदर्शित करता है कि इसमें ऐसे किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार सम्मिलित हैं और

				बीजक में प्रभारित रकम ऐसी किसी यात्रा के लिए प्रभारित सकल रकम है, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी यात्रा के लिए अपेक्षित आवास और परिवहन के प्रभार भी हैं।
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न समर्थनकारी सेवाएं	9	-
24	शीर्ष 9986	(i) कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाएं स्पष्टीकरण.- "कृषि, वन उद्योग, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्थनकारी सेवाओं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:- (i) निम्नलिखित के माध्यम से खाद्य, फाइबर, ईंधन, कच्ची सामग्री या अन्य वैसे ही उत्पादों या कृषि उत्पाद के लिए पौधों के रोपण और पशुओं के सभी जीवन रूपों के, अश्वों के पालनपोषण के - पोषण से संबंधित -सिवाय पालन सेवाएं— (क) किसी कृषि उत्पाद, जिसके अंतर्गत खेती, फसलें लगाना, श्रेसिंग, पौद्या संरक्षण या परीक्षण भी है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कृषि प्रचालन ; (ख) कृषि श्रमिकों को उपलब्ध कराना ; (ग) किसी कृषि फार्म में की जाने वाली प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत पौधों की देखभाल करना, छटाई, काटना, कटाई, शुष्कन, सफाई, परिकर्तन, धूप में शुष्कन, धूमन, उन्हें ठीक करना, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, प्रशीतन या प्रपुंज पैकेजिंग करना और वैसे ही प्रचालन, जो कृषि उत्पाद के अनिवार्य गुण धर्म	कुछ नहीं	-

		को परिवर्तित नहीं करते हैं किंतु उसे प्राथमिक बाजार के लिए केवल विपणनीय बनाते हैं ; (घ) कृषि संबंधी मशीनरी या किसी रिक्त भूमि, जो उसके उपयोग के आनुषंगिक किसी संरचना सहित या उसके रहित है, किराए या पट्टे पर देना ; (ङ) कृषि उत्पाद की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या भांडागारण ; (च) कृषि विस्तारण सेवाएं ; (छ) किसी कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय के लिए किसी कमीशन अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। (ii) फलों और सब्जियों के पूर्व अनुकूलन, पूर्व प्रशीतन, पकाने, मोम का लेप चढ़ाने, खुदरा पैकिंग, लेबल लगाने के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सेवाएं, जो उक्त फलों या सब्जियों के अनिवार्य गुण धर्मों में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं करती हैं। (iii) पादपों की बुआई और अश्वों के पालनपोषण के सिवाय पशुओं के सभी जीवित प्ररूपों के पालन पोषण जैसे खाद्य, रेशे, ईंधन कच्ची सामग्री या कोई अन्य समान उत्पादों या कृषि उपज के संबंध में जाब वर्क के रूप में किसी मध्यवर्ती उत्पादन क्रिया को करना।		
		(ii) खनन, विद्युत, गैस और जल वितरण के लिए समर्थनकारी सेवाएं	9	-
25	शीर्ष 9987	अनुरक्षण, मरम्मत और प्रतिस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं	9	-

26	शीर्ष 9988 [अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं]	(i) निम्नलिखित के संबंध में जाबवर्क के माध्यम से सेवाएं (क) समाचार पत्रों का मुद्रण (ख) टैक्सटाइल सूत (मानव निर्मित फाइबर से भिन्न) और टैक्सटाइल फैब्रिक (ग) कर्तित और पालिश किए हुए हीरक; मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान रत्न, या स्वर्ण और अन्य मूल्यवान धातुओं के सादे और जड़ाऊ आभूषण जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अधीन आते हैं (घ) पुस्तकों (जिसके अंतर्गत ब्रेल पुस्तकें हैं), पत्रों और आवधिक पत्रों का मुद्रण (ङ) खाल, चर्म और चमड़ा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 41 के अधीन आते हैं, का प्रसंस्करण स्पष्टीकरण- “मानव निर्मित फाइबर” से स्टेपल फाइबर और या तो विनिर्माणकारी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित जैविक पालिमरों के फिलामेंट अभिप्रेत हैं : (क) पालीएमाइड्स, पोलिएस्टर, पोलिओलेथिन्स या पोलिउरेथेन्स उत्पादित करने के लिए जैविक मोनोमरों का पालिमेराइकरण या इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पालिमरों का रासायनिक उपांतरण (उदाहरणार्थ पालीफिनायल एल्कोहल जो पोलिविनायल एसेटेट के हाइड्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है); या (ख) पालीमरों का प्राकृतिक जैविक पालिमरों को घोलने या रासायनिक उपचार द्वारा उत्पादन करने के लिए (उदाहरणार्थ सेलुलोस) जैसे कुपरामोनियम रेयान (कुपरो) या विस्कोस रेयान या प्राकृतिक जैविक पालीमरों के रासायनिक उपांतरण द्वारा (उदाहरणार्थ सेलुलोस, केसीन और अन्य प्रोटीन या अलजीनिक अमल पैकेज सेलुलोस एसिटेट या अल्जीमेट्स का उत्पादन किया जा सके	2.5	-
		(ii) पूर्वोक्त (i) से भिन्न अन्य के स्वामित्व में भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं	9	-
27	शीर्ष 9989	अन्य विनिर्माणकारी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सेवाएं; सामग्री बसूली सेवाएं	9	-

28	खंड 9	सामुदायिक, समाज एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं		
29	शीर्ष 9991	सामुदायिक और समग्र रूप में उपलब्ध कराई गई लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं	9	-
30	शीर्ष 9992	शैक्षिक सेवाएं	9	-
31	शीर्ष 9993	मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखरेख सेवाएं	9	-
32	शीर्ष 9994	मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं	9	-
33	शीर्ष 9995	सदस्यता संगठनों की सेवाएं	9	-
34	शीर्ष 9996 (मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं)	(i) सर्कस, भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जिसके अंतर्गत लोक नृत्य, थियेटर में प्रदर्शन, ड्रामा है, में प्रवेश या पहुंच के माध्यम से सेवाएं	9	-
		(ii) सिनेमा फिल्मों में प्रवेश प्रदर्शन के माध्यम से सेवाएं, जहां प्रवेश टिकट की कीमत एक सौ रुपए या कम है	9	-
		(iii) मनोरंजन आयोजनों में प्रवेश या मनोविनोद सुविधाओं तक पहुंच, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों का प्रदर्शन, थीम, पार्क, वाटर पार्क या जाय-राइड, मैरी-गो राउंड, गो-कार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, कोई क्रीड़ा समारोह जैसे इंडियन प्रीमियर लीग और सदृश हैं, के माध्यम से सेवाएं	14	-
		(iv) टोटेलिसेटर या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा किसी रेस क्लब में उपलब्ध कराई गई सेवाएं	14	-
		(v) जुआबाजी	14	-
		(vi) पूर्वोक्त (i), (ii), (iii), (iv) और (v) से भिन्न मनोरंजन, सांस्कृतिक और क्रीड़ा सेवाएं	9	-
35	शीर्ष 9997	अन्य सेवाएं (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएं, सौन्दर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं भी हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं)	9	-
36	शीर्ष 9998	घरेलू सेवाएं	9	-
37	शीर्ष 9999	एक्स्ट्राटेरिटोरियल संगठनों और निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं	9	-

2. उपरोक्त सारणी की क्र.सं. 3 के सामने मद (i) में प्रविष्टि के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में, जिसमें, यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर में संपत्ति का अंतरण अंतर्बलित है, सेवा की पूर्ति और ऐसी पूर्ति में माल के भाग का मूल्य या भूमि के अविभाजित शेयर के मूल्य से घटाकर ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम के समतुल्य होगा और भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर का मूल्य, यथास्थिति, ऐसी पूर्ति में ऐसी पूर्ति के लिए प्रभारित कुल रकम का एक-तिहाई समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, “कुल रकम” से निम्नलिखित की कुल राशि अभिप्रेत है,—

(क) पूर्वोक्त सेवा के लिए प्रभारित प्रतिफल ; और

(ख) यथास्थिति, भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर के अंतरण के लिए प्रभारित रकम।

3. लाटरी की पूर्ति का मूल्य, राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लाटरी की दशा में आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अंकित मूल्य या कीमत का 112/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी की दशा में लाटरी का अंकित मूल्य या आयोजक राज्य द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कीमत का 128/100, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

4. स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए:--

- (i) माल में पूंजी माल भी सम्मिलित हैं।
- (ii) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” शब्दों के प्रतिनिर्देश से, जहां कहीं वे आते हैं, वही अभिप्रेत होगा, जो सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम में क्रमशः “अध्याय”, “खंड” या “शीर्ष” का है।
- (iii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, धारा और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के लिए नियम जहां तक हो सके, शीर्ष 9988 के निर्वचन को लागू होंगे।
- (iv) इस अधिसूचना में जहां कहीं कोई दर इस शर्त के अधीन कि सेवा की पूर्ति में प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है, विहित की गई है, वहां उसका तात्पर्य यह होगा कि,--
 - (क) ऐसी सेवा की पूर्ति में अन्यय रूप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है; और
 - (ख) ऐसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पूर्तियों को भागतः प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसी सेवा की पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उपधारा (2) और तदधीन बनाए गए नियम के उपबंध लागू होते।
- (v) “सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर” से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या इमेज, जिसमें सोर्स कोड और आब्जेक्ट कोड मशीन में पठनीय रूप से अभिलिखित और परिवर्तन किए जाने में सक्षम या प्रयोगकर्ता के लिए अंतर-क्रियाकलाप प्रदान करने, कंप्यूटर या किसी स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपकरण के माध्यम से प्रस्तुत करना सम्मिलित है, अभिप्रेत है।
- (vi) “कृषि विस्तार” से किसान शिक्षा या प्रशिक्षण द्वारा कृषि पद्धतियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान का अनुपयोग अभिप्रेत है।
- (vii) “कृषि उत्पाद” से पौधों की उपज और पशुओं के सभी जीवित रूपों को पालने सिवाय अश्व पालन के खाद्य के लिए फाइबर कच्ची सामग्रियां या अन्य वैसे ही उत्पाद अभिप्रेत, ईंधन जिन पर या तो कोई और प्रसंस्करण नहीं किया जाता है या ऐसा प्रसंस्करण: प्रायः है उपजाने वाले द्वारा या उत्पादक द्वारा किया जाता है जो उसकी अनिवार्य विशेषताओं में फेरफार नहीं करता है किंतु उसे प्राथमिक बाजारमें विपणन योग्य बनाता है।
- (viii) “कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड” से कृषि उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त राज्य विधि के अधीन गठित कोई समिति या बोर्ड अभिप्रेत है।

5. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. गुप्ता, उप-सचिव -VI (वित्त)

सारणी

(सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम)

क्रम सं०	अध्याय, खंड, शीर्ष या समूह	सेवा कोड (टैरिफ)	सेवा का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अध्याय 99		सभी सेवाएं
2	खंड 5		सन्निर्माण सेवाएं
3	शीर्ष 9954		सन्निर्माण सेवाएं
4	समूह 99541		भवनों की सन्निर्माण सेवाएं
5		995411	एकल निवास गृह या बहु निवास गृह या बहुमंजिले आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
6		995412	वृद्ध आश्रमों, बेघरों के आश्रयस्थलों, छात्रावासों और उन जैसे अन्य आवासीय भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
7		995413	उत्पादन क्रियाकलापों (एसेम्बली लाइन क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त) के लिए प्रयुक्त भवनों, कार्यशालाओं, भाण्डागारण भवनों जैसे औद्योगिक भवनों और अन्य वैसे ही औद्योगिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
8		995414	कार्यालय भवनों, प्रदर्शनी और विवाह हाल, माल, होटल, रेस्टोरेन्ट, विमानपत्तन, रेल या सड़क टर्मिनल, पार्किंग गैराज, पेट्रोल और सर्विस स्टेशन, थियेटर और अन्य वैसे ही भवनों जैसे वाणिज्यिक भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
9		995415	शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, क्लीनिक, जिनके अंतर्गत पशु चिकित्सा क्लीनिक भी हैं, धार्मिक स्थापन, न्यायालय, कारागार, संग्रहालय और अन्य वैसे ही भवनों जैसे अन्य गैर-निवासी भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं
10		995416	अन्य भवनों संबंधी सन्निर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
11		995419	सेवाएं, जिनमें उपरोक्त में आने वाले भवनों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापना, नवीकरण, रखरखाव या पुनःमाडलिंग सम्मिलित है
12	समूह 99542		सिविल इंजीनियरी संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
13		995421	राजमार्गों, पथों, सड़कों, रेल और एयरफील्ड रनवे, पुलों और सुरंगों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
14		995422	तटों, जलमार्गों, बांधों, जल मेन्स और लाइनों, सिंचाई और अन्य जल संबंधी संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
15		995423	लंबी दूरी की भूमिगत या भूमि के ऊपर या उप समुद्रीय पाइप लाइनें, संचार और विद्युत लाइनें (केबल), पम्पिंग स्टेशन और संबंधित संकर्म ; ट्रांसफार्मर स्टेशन और संबंधित संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं

16		995424	स्थानीय जल और मलवाहक पाइप लाइनों, विद्युत और संचार केबल तथा संबंधित संकर्मों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
17		995425	खान और औद्योगिक संयंत्रों से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
18		995426	विद्युत संयंत्र और उससे संबंधित अवसंरचना से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
19		995427	बाह्य खेल और मनोरंजन सुविधाओं से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं
20		995428	अन्य सिविल इंजीनियरी संकर्म से संबंधित साधारण सन्निर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
21		995429	सेवाएं, जिनमें उपरोक्त सन्निर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, जोड़ा जाना, पुनःस्थापना, नवीकरण, रखरखाव या पुनःनिर्माण सम्मिलित है
22	समूह 99543		स्थल निर्माण सेवाएं
23		995431	ढाने संबंधी सेवाएं
24		995432	स्थल निर्माण और निकासी सेवाएं, जिनके अंतर्गत पश्चात्कर्ती सन्निर्माण संकर्म के लिए स्थलों को तैयार करने हेतु निर्माण सेवाएं, परीक्षण ड्रिलिंग और बोरिंग तथा कोर निष्कर्षण, खाइयों की खुदाई भी हैं
25		995433	उत्खनन और मिट्टी हटाने से संबंधित सेवाएं
26		995434	वाटर वेल ड्रिलिंग सेवाएं और सेप्टिक प्रणाली लगाने संबंधी सेवाएं
27		995435	अन्य स्थल निर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
28		995439	सेवाएं, जिनमें उपरोक्त सन्निर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापना, नवीकरण, रखरखाव या पुनःनिर्माण सम्मिलित है
29	समूह 99544		पूर्व तैयार संनिर्माणों का संयोजन और उन्हें खड़ा करना
30		995441	पूर्व तैयार भवनों का प्रतिष्ठापन, संयोजन और उन्हें खड़ा करना
31		995442	अन्य पूर्व तैयार संरचनाओं और संनिर्माणों का प्रतिष्ठापन, संयोजन और उन्हें खड़ा करना
32		995443	सभी किस्म के सड़क फर्नीचर (जैसे बस शेल्टर, बेंच, टेलीफोन बूथ, जन-सुविधाएं और अन्य समान फर्नीचर) संबंधी प्रतिष्ठापन सेवाएं
33		995444	अन्य संयोजन और खड़ा करने संबंधी सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
34		995449	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं

35	समूह 99545		विशेष व्यापार संनिर्माण सेवाएं
36		995451	बल्ली लगाना और नींव सेवाएं
37		995452	भवन फ्रेमिंग और छत फ्रेमिंग सेवाएं
38		995453	रूफिंग और वाटरप्रूफिंग सेवाएं
39		995454	कंक्रीट सेवाएं
40		995455	अवसंरचनात्मक इस्पात को खड़ा करने संबंधी सेवाएं
41		995456	राजमिस्त्री सेवाएं
42		995457	पाइ सेवाएं
43		995458	अन्य विशेष व्यापार निर्माण सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
44		995459	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
45	समूह 99546		प्रतिष्ठापन सेवाएं
46		995461	वैद्युत प्रतिष्ठापन सेवाएं, जिनमें वैद्युत वायरिंग और फिटिंग सेवाएं, फायर अलार्म प्रतिष्ठापन, बर्गलर अलार्म प्रणाली प्रतिष्ठापन सेवाएं सम्मिलित हैं
47		995462	जल नलसाजी और नाली बिछाने की सेवाएं
48		995463	ऊष्मण, संवातन और वातानकूलन उपस्कर प्रतिष्ठापन सेवाएं
49		995464	गैस फिटिंग प्रतिष्ठापन सेवाएं
50		995465	इंसुलेशन सेवाएं
51		995466	लिफ्ट और एस्केलेटर प्रतिष्ठापन सेवाएं
52		995468	अन्य प्रतिष्ठापन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
53		995469	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त प्रतिष्ठापनों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
54	समूह 99547		भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं
55		995471	ग्लेजिंग सेवाएं
56		995472	प्लास्टर सेवाएं
57		995473	रंग-रोगन सेवाएं
58		995474	फर्श और दीवार पर टाइल लगाने की सेवाएं
59		995475	अन्य फर्श बिछाने, दीवार ढकने और दीवार पर कागज लगाने की सेवाएं
60		995476	ज्वाइनरी और बढई सेवाएं
61		995477	बाहर की दीवार और रेलिंग लगाने की सेवाएं
62		995478	अन्य भवन निर्माण पूरा करना और परिसज्जा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं

63		995479	सेवाएं, जिसमें उपरोक्त संनिर्माणों की मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन, प्रतिस्थापन, रखरखाव सेवाएं सम्मिलित हैं
64	खंड 6		वितरण व्यापार सेवाएं ; आवास, भोजन और सुपेय सेवाएं, यातायात सेवाएं, गैस और विद्युत वितरण सेवाएं
65	शीर्ष 9961		थोक व्यापार में सेवाएं
66	समूह 99611		
67		996111	थोक व्यापार में शुल्क/कमीशन या संविदा के आधार पर सेवा प्रदान करना
68	शीर्ष 9962		खुदरा व्यापार में सेवाएं
69	समूह 99621		
70		996211	खुदरा व्यापार में शुल्क/कमीशन या संविदा के आधार पर सेवा प्रदान करना
71	शीर्ष 9963		आवास, भोजन और सुपेय सेवाएं
72	समूह 99631		आवास सेवाएं
73		996311	होटल, सराय, अतिथि-गृह, क्लब और समान अस्तित्वों द्वारा दी जाने वाली कमरा या यूनिट आवास सेवाएं
74		996312	शिविर स्थल सेवाएं
75		996313	मनोरंजक और अवकाशकालीन शिविर सेवाएं
76	समूह 99632		अन्य आवास सेवाएं
77		996321	छात्रावासों में छात्रों के लिए कमरा या यूनिट आवास सेवाएं
78		996322	छात्रावासों, शिविरों, पेंडिंगेस्ट और वैसे ही अस्तित्वों द्वारा प्रदान की जाने वाली कमरा या यूनिट आवास सेवाएं
79		996329	अन्य कमरा या यूनिट आवास सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
80	समूह 99633		भोजन, खाद्य निर्मितियां, एल्कोहाली और एल्कोहाली पेय प्रदान करने की सेवाएं
81		996331	रेस्त्रां, कैफे और समरूप खाद्य प्रसुविधाओं, जिसमें स्वयं ले जाने वाली सेवाएं, कमरा सेवाएं और भोजन का घर पर परिदाने करना सम्मिलित है, द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
82		996332	होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब और वैसे ही अस्तित्वों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसमें स्वयं ले जाने वाली सेवाएं, कमरा सेवाएं और भोजन का घर पर परिदान करना सम्मिलित है
83		996333	कैंटीन और अन्य समरूप स्थापनों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं
84		996334	प्रदर्शनी हाल, इवेंट, विवाह हाल और अन्य बाह्य या भीतरी अंतरंग कार्यक्रमों में खानपान सेवाएं

85		996335	रेल, हवाई जहाज और वैसे ही वाहनों में कैटरिंग सेवाएं
86		996336	एयर लाइनों और अन्य यातायात प्रचालकों को भोजन, खाद्य वस्तुओं, एल्कोहाली और गैर-एल्कोहाली पेय तैयार करना या उनकी पूर्ति करने की सेवाएं
87		996337	अन्य संविदा भोजन सेवाएं
88		996339	अन्य भोजन, खाद्य वस्तुओं, एल्कोहाली और गैर-एल्कोहाली पेय तैयार करना या उनकी पूर्ति करने की सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
89	शीर्ष 9964		यात्री यातायात सेवाएं
90	समूह 99641		यात्रियों की स्थानीय परिवहन और पर्यटन परिवहन सेवाएं
91		996411	रेल, मेट्रो, मोनो-रेल, बस, ट्राम वे, आटो, तिपहिया स्कूटर और अन्य मोटर यानों द्वारा यात्रियों की स्थानीय भू-परिवहन सेवाएं
92		996412	टैक्सी सेवाएं, जिसमें रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं सम्मिलित हैं
93		996413	गैर सूचीबद्ध स्थानीय बस और कोच चार्टर सेवाएं
94		996414	यात्रियों के लिए अन्य भू-परिवहन सेवाएं
95		996415	फैरी, कूज और वैसे ही जलयानों द्वारा यात्रियों के लिए स्थानीय जल परिवहन सेवाएं
96		996416	रेल, भूमि, जल और वायु पर्यटन द्वारा स्थल दर्शन परिवहन सेवाएं
97		996419	यात्रियों की अन्य स्थानीय परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
98	समूह 99642		यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
99		996421	रेलवे द्वारा रेल नेटवर्क, मेट्रो इत्यादि के माध्यम से यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
100		996422	बस, कार, गैर अनुसूचित लंबी दूरी की बस और कोच सेवाएं, स्टेज कैरिज इत्यादि द्वारा सड़क के माध्यम से यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
101		996423	टैक्सी सेवाएं, जिसमें रेडियो टैक्सी और अन्य समरूप सेवाएं हैं
102		996424	फैरी, कूज जलयानों और वैसे ही यानों द्वारा यात्रियों की तटीय और परासमुद्रीय (ओवरसीज) जल परिवहन सेवाएं
103		996425	यात्रियों की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं
104		996426	यात्रियों की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय गैर अनुसूचित वायु परिवहन सेवाएं
105		996427	यात्रियों की अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं
106		996429	यात्रियों की अन्य लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं

107	शीर्ष 9965		माल परिवहन सेवाएं
108	समूह 99651		माल की भू परिवहन सेवाएं
109		996511	रेफ्रिजरेटर, यान, ट्रक, ट्रेलर, मनुष्य या पशु को ले जाने वाले यान या कोई अन्य यान द्वारा माल की सड़क परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, कन्टेनर इत्यादि सम्मिलित हैं
110		996512	माल की रेल परिवहन सेवाएं, जिसमें पत्र, पार्सल, जीवित पशु, घरेलू और कार्यालय फर्नीचर, इंटरमाडल कन्टेनर, बल्क कारगो इत्यादि सम्मिलित हैं
111		996513	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, सीवेज और पाइपलाइन द्वारा अन्य माल की परिवहन सेवाएं
112		996519	माल की अन्य भू परिवहन सेवाएं ; जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
113	समूह 99652		माल की जल परिवहन सेवाएं
114		996521	रेफ्रिजरेटर जलयानों, टैंकर, प्रपुंज स्थोरा, कन्टेनर, पोत इत्यादि द्वारा माल की तटीय और परासमुद्रीय जल परिवहन सेवाएं
115		996522	रेफ्रिजरेटर जलयानों, टैंकर और अन्य जलयानों द्वारा माल की अंतरदेशीय जल परिवहन सेवाएं
116	समूह 99653		माल की वायु और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं
117		996531	पत्र और पार्सल तथा अन्य माल की वायु परिवहन सेवाएं
118		996532	भाड़े की अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं
119	शीर्ष 9966		प्रचालक सहित या रहित परिवहन यान की किराए की सेवाएं
120	समूह 99660		प्रचालक सहित या रहित परिवहन यान की किराए की सेवाएं
121		996601	सड़क यानों की किराए की सेवाएं, जिसमें बस, कोच, कार, ट्रक और अन्य मोटर यान, प्रचालक सहित या रहित सम्मिलित हैं
122		996602	जल यानों की किराए की सेवाएं, जिसमें बस, कोच, कार, ट्रक और अन्य मोटर यान, प्रचालक सहित या रहित सम्मिलित हैं
123		996603	वायुयान की किराए की सेवाएं, जिसमें भाड़े के वायुयान इत्यादि, प्रचालक सहित या रहित सम्मिलित हैं
124		996609	अन्य परिवहन यानों की किराए की सेवाएं, प्रचालक सहित या रहित, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
125	शीर्ष 9967		परिवहन में सहायता देने वाली सेवाएं
126	समूह 99671		स्थोरा को उतारने चढ़ाने की सेवाएं
127		996711	कन्टेनर उतारने चढ़ाने की सेवाएं
128		996712	सीमाशुल्क गृह अभिकर्ता सेवाएं

129		996713	समाशोधन और अग्रेषण सेवाएं
130		996719	अन्य माल और सामान उतारने और चढ़ाने की सेवाएं
131	समूह 99672		गोदाम और भांडागार सेवाएं
132		996721	रेफ्रिजरेटेड गोदाम सेवाएं
133		996722	प्रपुंज द्रव या गैस गोदाम सेवाएं
134		996729	अन्य गोदाम और भांडागार सेवाएं
135	समूह 99673		रेल परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
136		996731	रेलवे की पुशिंग और टोइंग सेवाएं
137		996739	रेल परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
138	समूह 99674		सड़क परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
139		996741	बस स्टेशन सेवाएं
140		996742	राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, सड़क और गलियां ; पुल और सुरंग प्रचालन सेवाओं की प्रचालन सेवाएं
141		996743	पार्किंग लाट सेवाएं
142		996744	वाणिज्यिक और निजी वाहनों के लिए उठाने की सेवाएं
143		996749	सड़क परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
144	समूह 99675		जल परिवहन (तटीय समुद्रपार और अंतर्देशीय जलमार्ग) के लिए सहायक सेवाएं
145		996751	पत्तन और जलमार्ग प्रचालन सेवाएं (माल उतारने चढ़ाने की सेवाओं को छोड़कर) जैसे पत्तन, डाक, लाइटहाउस, हल्क पोत इत्यादि की प्रचालन सेवाएं
146		996752	पाइलोटेंज और बर्थिंग सेवाएं
147		996753	जलयान, मल निकासी और पुनःफ्लोटिंग सेवाएं
148		996759	जल परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
149	समूह 99676		वायु और अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
150		996761	हवाई अड्डा प्रचालन सेवाएं (स्थोरा उतारने चढ़ाने की सेवाओं को छोड़कर)
151		996762	वायु यातायात नियंत्रण सेवाएं
152		996763	वायु परिवहन के लिए अन्य सहायक सेवाएं
153		996764	अंतरिक्ष परिवहन के लिए सहायक सेवाएं
154	समूह 99679		अन्य सहायक परिवहन सेवाएं
155		996791	सड़क परिवहन के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं
156		996792	परिवहन के अन्य माध्यमों के लिए माल परिवहन अभिकरण सेवाएं

157		996793	अन्य माल परिवहन सेवाएं
158		996799	अन्य सहायक परिवहन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
159	शीर्ष 9968		डाक और कुरियर सेवाएं
160	समूह 99681		डाक और कुरियर सेवाएं
161		996811	डाक सेवाएं, जिसमें डाकघर काउंटर सेवाएं, मेल बाक्स, रेंटल सेवाएं सम्मिलित हैं
162		996812	कुरियर सेवाएं
163		996813	स्थानीय डिलीवरी सेवाएं
164		996819	अन्य डिलीवरी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
165	शीर्ष 9969		विद्युत, गैस, जल और अन्य वितरण सेवाएं
166	समूह 99691		विद्युत और गैस वितरण सेवाएं
167		996911	विद्युत पारेषण सेवाएं
168		996912	विद्युत वितरण सेवाएं
169		996913	गैस वितरण सेवाएं
170	समूह 99692		जल वितरण और अन्य सेवाएं
171		996921	जल वितरण सेवाएं
172		996922	सेवाएं, जिसमें भाप का वितरण, गर्म जल और वायु प्रशीतन प्रदान इत्यादि अंतर्भूत हैं
173		996929	अन्य समरूप सेवाएं
174	खंड 7		वित्तीय और संबंधित सेवाएं ; रियल एस्टेट सेवाएं ; और किराए और पट्टा देने की सेवाएं
175	शीर्ष 9971		वित्तीय और संबंधित सेवाएं
176	समूह 99711		वित्तीय सेवाएं (विनिधान बैंकिंग, बीमा सेवाएं और पेंशन सेवाओं को छोड़कर)
177		997111	केंद्रीय बैंकिंग सेवाएं
178		997112	निक्षेप सेवाएं
179		997113	ऋण प्रदान सेवाएं, जिसमें स्टैंड बाई कमिटमेंट, गारंटी और प्रतिभूति सम्मिलित हैं
180		997114	वित्तीय पट्टा सेवाएं
181		997119	अन्य वित्तीय सेवाएं, (विनिधान बैंकिंग, बीमा सेवाएं और पेंशन सेवाओं को छोड़कर)
182	समूह 99712		विनिधान बैंकिंग सेवाएं
183		997120	विनिधान बैंकिंग सेवाएं
184	समूह 99713		बीमा और पेंशन सेवाएं (पुनर्बीमा सेवा को छोड़कर)
185		997131	पेंशन सेवाएं

186		997132	जीवन बीमा सेवाएं (पुनर्बीमा सेवा को छोड़कर)
187		997133	दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा सेवाएं
188		997134	मोटर यान बीमा सेवाएं
189		997135	समुद्री, वायु और अन्य परिवहन बीमा सेवाएं
190		997136	भाड़ा बीमा सेवाएं और ट्रेवल बीमा सेवाएं
191		997137	अन्य संपत्ति बीमा सेवाएं
192		997139	अन्य गैर जीवन बीमा सेवाएं (पुनर्बीमा सेवा को छोड़कर)
193	समूह 99714		पुनर्बीमा सेवाएं
194		997141	जीवन पुनर्बीमा सेवाएं
195		997142	दुर्घटना और स्वास्थ्य पुनर्बीमा सेवाएं
196		997143	मोटर यान पुनर्बीमा सेवाएं
197		997144	समुद्री, वायु और अन्य परिवहन पुनर्बीमा सेवाएं
198		997145	भाड़ा बीमा सेवाएं और ट्रेवल पुनर्बीमा सेवाएं
199		997146	अन्य संपत्ति पुनर्बीमा सेवाएं
200		997149	अन्य गैर जीवन पुनर्बीमा सेवाएं
201	समूह 99715		वित्तीय सेवाओं के लिए सहायक सेवाएं (बीमा और पेंशन से भिन्न)
202		997151	विनिधान बैंकिंग से संबंधित सेवाएं, जैसे विलयन और अर्जन सेवाएं, कारपोरेट, वित्त और जोखिम पूंजी सेवाएं
203		997152	दलाली संबंधित प्रतिभूति और वस्तु सेवाएं, जिसमें वस्तु विनिमय सेवाएं भी हैं
204		997153	पोर्ट फोलियो प्रबंधन सेवाएं, पेंशन निधि को छोड़कर
205		997154	न्यास और कस्टडी सेवाएं
206		997155	वित्तीय बाजार के प्रशासन से संबंधित सेवाएं
207		997156	वित्तीय परामर्श सेवाएं
208		997157	विदेशी मुद्रा सेवाएं
209		997158	वित्तीय संव्यवहार प्रसंस्करण और समाशोधन गृह संबंधी सेवाएं
210		997159	वित्तीय सेवाओं के लिए अन्य सहायक सेवाएं
211	समूह 99716		बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं
212		997161	बीमा दलाली और अभिकरण संबंधी सेवाएं
213		997162	बीमा दावा समायोजन सेवाएं
214		997163	बीमांकक सेवाएं
215		997164	पेंशन निधि प्रबंध सेवाएं
216		997169	बीमा और पेंशन के लिए सहायक सेवाएं

217	समूह 99717		धृति वित्तीय आस्ति संबंधी सेवाएं
218		997171	समानुषंगी कंपनियों की साम्या धृति संबंधी सेवाएं
219		997172	न्यासों और निधियों तथा वैसी ही वित्तीय अस्तित्वों की धृति प्रतिभूतियों और अन्य आस्ति से संबंधित सेवाएं
220	शीर्ष 9972		भू संपदा संबंधी सेवाएं
221	समूह 99721		भू संपदा संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार संपत्ति अंतर्बलित है
222		997211	किराए या पट्टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार आवासिक संपत्ति अंतर्बलित है
223		997212	किराए या पट्टे पर देने संबंधी सेवाएं, जिनमें स्वामित्वाधीन या पट्टेदार गैर-आवासिक संपत्ति अंतर्बलित है
224		997213	भवनों के व्यापार संबंधी सेवाएं
225		997214	समय-भाग संपत्ति की व्यापार संबंधी सेवाएं
226		997215	रिक्त और उप विभाजित भूमि की व्यापार संबंधी सेवाएं
227	समूह 99722		फीस या कमीशन या संविदा पर आधारित भू संपदा सेवाएं
228		997221	फीस या कमीशन पर या संविदा पर आधारित संपत्ति प्रबंध सेवाएं
229		997222	फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भवन विक्रय
230		997223	फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भूमि विक्रय
231		997224	फीस या कमीशन पर या संविदा के आधार पर भू संपदा संपत्ति अंकन सेवाएं
232	शीर्ष 9973		प्रचालक के साथ या उसके बिना पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
233	समूह 99731		प्रचालक के साथ या उसके बिना मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
234		997311	प्रचालक के साथ या उसके बिना आधानों सहित संबद्ध परिवहन उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
235		997312	प्रचालक के साथ या उसके बिना कृषि मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
236		997313	प्रचालक के साथ या उसके बिना संनिर्माण मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
237		997314	प्रचालक के साथ या उसके बिना कार्यालय मशीनरी और उपस्कर (कंप्यूटर के सिवाए) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
238		997315	प्रचालक के साथ या उसके बिना कंप्यूटरों से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
239		997316	प्रचालक के साथ या उसके बिना दूरसंचार उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं

240		997319	प्रचालक के साथ या बिना अन्य मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
241	समूह 99732		अन्य माल से संबंधित पट्टे या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
242		997321	टेलीविजन, रेडियो, वीडियो, कैसेट्स, रिकार्डर, प्रोजेक्टर, ऑडियो सिस्टम और संबंधित उपस्कर और उपसाधनों (गृह मनोरंजन उपस्कर) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
243		997322	वीडियो, टेप और डिस्क (गृह मनोरंजन उपस्कर) से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
244		997323	फर्नीचर और अन्य गृहस्थी साधित्र से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
245		997324	विलास और अवकाश उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
246		997325	गृह उपयोगी लिनेन से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
247		997326	टेक्सटाइल, वस्त्र और फुटवीयर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
248		997327	स्वयं कार्य करने वाली (डू-इट-यूअरसेल्फ) मशीनरी और उपस्कर से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
249		997329	अन्य माल से संबंधित पट्टे पर देने या किराए पर देने संबंधी सेवाएं
250	समूह 99733		बौद्धिक संपदा और उसी तरह के उत्पादों के उपयोग के लिए अधिकार हेतु अनुज्ञापन सेवाएं
251		997331	कंप्यूटर साफ्टवेयर और डाटाबेस उपयोग के अधिकार हेतु अनुज्ञापन सेवाएं
252		997332	मूल फिल्मों, ध्वनि अंकन, रेडियो और टेलीविजन आदि कार्यक्रमों के प्रसारण और प्रदर्शन के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
253		997333	मूल कलाकृति के पुनःनिर्माण के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
254		997334	पांडुलिपि, पुस्तकें, जर्नल और नियतकालिक पत्रिकाओं के पुनःमुद्रण और प्रति बनाने संबंधी अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
255		997335	अनुसंधान और विकास उत्पादों के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
256		997336	व्यापार चिन्ह और विशेषाधिकार के उपयोग के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
257		997337	खनिजों के उपयोग, जिसके अंतर्गत उसकी खोज और मूल्यांकन भी हैं, के अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
258		997338	दूरसंचार स्पेक्ट्रम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग हेतु अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं
259		997339	अन्य बौद्धिक संपदा उत्पाद और अन्य संसाधनों के उपयोग हेतु अधिकार के लिए अनुज्ञापन सेवाएं

260	खंड 8		कारबार और उत्पादन सेवाएं
261	शीर्ष 9981		अनुसंधान और विकास सेवाएं
262	समूह 99811		प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास सेवाएं
263		998111	प्राकृतिक विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
264		998112	इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
265		998113	चिकित्सा विज्ञान और फार्मेसी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
266		998114	कृषि विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
267	समूह 99812		सामाजिक विज्ञान और मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास सेवाएं
268		998121	सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
269		998122	मानविकी में अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
270	समूह 99813		अंतरविषयक अनुसंधान सेवाएं
271		998130	अंतरविषयक अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास संबंधी सेवाएं
272	समूह 99814		मूल अनुसंधान और विकास
273		998141	औषधि निर्माण में मूल अनुसंधान और विकास
274		998142	कृषि में मूल अनुसंधान और विकास
275		998143	जैव प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान और विकास
276		998144	कंप्यूटर संबंधित विज्ञान में मूल अनुसंधान और विकास
277		998145	अन्य क्षेत्रों में मूल अनुसंधान और विकास जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
278	शीर्ष 9982		विधिक और लेखांकन सेवाएं
279	समूह 99821		विधिक सेवाएं
280		998211	दांडिक विधि संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं
281		998212	विधि के अन्य क्षेत्रों में संबंधित विधिक सलाहकारी और प्रतिनिधित्व सेवाएं
282		998213	पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकारों और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं
283		998214	अन्य दस्तावेजों से संबंधित विधिक प्रलेखीकरण और प्रमाणीकरण सेवाएं
284		998215	माध्यस्थता और सुलह सेवाएं
285		998216	अन्य विधिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं

286	समूह 99822		लेखांकन, संपरीक्षण और पुस्तकपालन सेवाएं
287		998221	वित्तीय संपरीक्षण सेवाएं
288		998222	लेखांकन और पुस्तकपालन सेवाएं
289		998223	पेरोल सेवाएं
290		998224	वैसी ही अन्य सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
291	समूह 99823		कर परामर्शी और तैयारी संबंधी सेवाएं
292		998231	कारपोरेट कर परामर्श और तैयारी संबंधी सेवाएं
293		998232	व्यष्टिक कर तैयारी और योजना संबंधी सेवाएं
294	समूह 99824		दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं
295		998240	दिवाला और रिसीवर संबंधी सेवाएं
296	शीर्ष 9983		अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं
297	समूह 99831		परामर्शी प्रबंधन और प्रबंध सेवाएं ; सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं.
298		998311	परामर्शी प्रबंधन और प्रबंध सेवाएं, जिनके अंतर्गत वित्तीय, नीतिगत, मानव संसाधन, विपणन, प्रचालन और प्रदाय शृंखला प्रबंध भी है
299		998312	कारबार परामर्शी सेवाएं, जिनके अंतर्गत जनसंपर्क संबंधी सेवाएं भी हैं
300		998313	सूचना प्रौद्योगिकी परामर्शी और समर्थनकारी सेवाएं
301		998314	सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना और विकास सेवाएं
302		998315	होस्टिंग और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना उपलब्ध करवाने संबंधी सेवाएं
303		998316	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और नेटवर्क प्रबंध सेवाएं
304		998319	अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
305	समूह 99832		स्थापत्य सेवाएं, नगर और भूमि योजना और दृश्य भूमि स्थापत्य सेवाएं
306		998321	स्थापत्य सलाहकारी सेवाएं
307		998322	आवासीय भवन परियोजनाओं के लिए स्थापत्य सेवाएं
308		998323	गैर-आवासीय भवन परियोजनाओं के लिए स्थापत्य सेवाएं
309		998324	ऐतिहासिक प्रत्यावर्तन स्थापत्य सेवाएं
310		998325	नगर योजना सेवाएं
311		998326	ग्रामीण भूमि योजना सेवाएं
312		998327	परियोजना स्थल महायोजना सेवाएं
313		998328	भूदृश्य भूमि संबंधी सेवाएं और सलाहकारी सेवाएं
314	समूह 99833		इंजीनियरी सेवाएं
315		998331	इंजीनियरी सलाहकारी सेवाएं

316		998332	भवन परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
317		998333	औद्योगिक और विनिर्माण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
318		998334	परिवहन संबंधी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
319		998335	विद्युत परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
320		998336	दूरसंचार और प्रसारण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
321		998337	अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं (परिसंकटमय और अपरिसंकटमय) के लिए और जल, मल वहन तथा जल निकासी परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं
322		998338	अन्य परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
323		998339	सन्निर्माण परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सेवाएं
324	समूह 99834		वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी सेवाएं
325		998341	भूविज्ञान और भौगोलिक परामर्शी सेवाएं
326		998342	उपसतही सर्वेक्षण संबंधी सेवाएं
327		998343	खनिज खोज और मूल्यांकन
328		998344	सतही सर्वेक्षण और मानचित्र निर्माण संबंधी सेवाएं
329		998345	मौसम पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं
330		998346	तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण संबंधी सेवाएं
331		998347	पोत, विमान, बांध, आदि का प्रमाणीकरण
332		998348	कलाकृति का प्रमाणीकरण और अधिप्रमाणन
333		998349	अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
334	समूह 99835		पशु चिकित्सा सेवाएं
335		998351	पालतू पशुओं से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं
336		998352	पशुधन से संबंधित पशु चिकित्सा सेवाएं
337		998359	अन्य पशु चिकित्सा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
338	समूह 99836		विज्ञापन सेवाएं और विज्ञापन के लिए स्थान या समय का उपबंध
339		998361	विज्ञापन संबंधी सेवाएं
340		998362	कमीशन आधार पर, विज्ञापन के लिए स्थान या समय का क्रय या विक्रय
341		998363	प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय (कमीशन से भिन्न)
342		998364	टेलीविजन और रेडियो पर विज्ञापन के लिए समय का विक्रय
343		998365	इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए स्थान का विक्रय

344		998366	अन्य विज्ञापन के लिए स्थान या समय का विक्रय (कमीशन से भिन्न)
345	समूह 99837		बाजार अनुसंधान और सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं
346		998371	बाजार अनुसंधान सेवाएं
347		998372	सार्वजनिक राय के लिए मतदान सेवाएं
348	समूह 99838		फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं
349		998381	चित्र फोटोग्राफी संबंधी सेवाएं
350		998382	विज्ञापन और संबंधित फोटोग्राफी सेवाएं
351		998383	घटना संबंधी फोटोग्राफी और घटना संबंधी वीडियोग्राफी सेवाएं
352		998384	विशिष्ट विषय संबंधी फोटोग्राफी सेवाएं
353		998385	फोटो का प्रत्यावर्तन और उनके परिष्करण संबंधी सेवाएं
354		998386	फोटो और वीडियो के प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं
355		998387	अन्य फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तथा उनके प्रसंस्करण संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
356	समूह 99839		अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं
357		998391	विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं, जिनके अंतर्गत आंतरिक सज्जा संबंधी डिजाइन, फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन और अन्य विशिष्ट डिजाइन संबंधी सेवाएं भी हैं
358		998392	डिजाइन मूल
359		998393	वैज्ञानिक और तकनीकी परामर्शी सेवाएं
360		998394	तथ्यों/सूचनाओं का मूल संकलन
361		998395	अनुवाद और भाषांतरण संबंधी सेवाएं
362		998396	व्यापार चिन्ह और विशेषाधिकार
363		998397	प्रायोजन सेवाएं और ब्रांड संवर्धन सेवाएं
364		998399	अन्य वृत्तिक, तकनीकी और कारबार संबंधी सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
365	शीर्ष 9984		दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रदाय संबंधी सेवाएं
366	समूह 99841		टेलीफोनी और अन्य दूरसंचार सेवाएं
367		998411	वाहक संबंधी सेवाएं
368		998412	नियत टेलीफोनी सेवाएं
369		998413	चल दूरसंचार सेवाएं
370		998414	प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं
371		998415	डाटा पारेषण सेवाएं

372		998419	अन्य दूरसंचार सेवाएं, जिनके अंतर्गत फैक्स सेवाएं, टैलेक्स सेवाएं भी हैं, जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
373	समूह 99842		इंटरनेट दूरसंचार सेवाएं
374		998421	इंटरनेट बैकबोन सेवाएं
375		998422	तार द्वारा या बेतार पद्धति में इंटरनेट पहुंच बनाने संबंधी सेवाएं
376		998423	इंटरनेट पर फैक्स, टेलीफोनी
377		998424	इंटरनेट पर आडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग
378		998429	अन्य इंटरनेट दूरसंचार सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
379	समूह 99843		आन-लाइन अंतर्वस्तु संबंधी सेवाएं
380		998431	आन-लाइन पुस्तकें, समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिकाएं, निदेशिका आदि जैसी आन-लाइन पाठ आधारित सूचना
381		998432	आन-लाइन श्रव्य अंतर्वस्तु
382		998433	आन-लाइन वीडियो (दृश्य) अंतर्वस्तु
383		998434	साफ्टवेयर डाउनलोड
384		998439	अन्य आन-लाइन अंतर्वस्तुएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
385	समूह 99844		समाचार अभिकरण संबंधी सेवाएं
386		998441	समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रिकाओं के लिए समाचार अभिकरण सेवाएं
387		998442	स्वतंत्र पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफरों की सेवाएं
388		998443	दृश्य-श्रव्य मीडिया के लिए समाचार अभिकरण सेवाएं
389	समूह 99845		पुस्तकालय और अभिलेखागार संबंधी सेवाएं
390		998451	पुस्तकालय संबंधी सेवाएं
391		998452	सार्वजनिक अभिलेखागारों, जिसके अंतर्गत डिजिटल अभिलेखागार भी हैं, की संक्रियात्मक सेवाएं
392		998453	ऐतिहासिक अभिलेखागारों, जिसके अंतर्गत डिजिटल अभिलेखागार भी हैं, की संक्रियात्मक सेवाएं
393	समूह 99846		प्रसारण, कार्यक्रमण और कार्यक्रम वितरण सेवाएं
394		998461	रेडियो प्रसारण मूल
395		998462	टेलिविजन प्रसारण मूल
396		998463	रेडियो चैनल कार्यक्रम
397		998464	टेलिविजन चैनल कार्यक्रम
398		998465	प्रसारण सेवाएं
399		998466	कार्यकरण वितरण सेवाएं
400	शीर्ष 9985		सहायता सेवाएं

401	समूह 99851		नियोजन सेवाएं, जिसके अन्तर्गत कार्मिक अनुसंधान या रेफरल सेवा और श्रम प्रदाय सेवा भी है
402		998511	कार्यपालक या प्रतिधारित कार्मिक अनुसंधान सेवाएं
403		998512	स्थायी नियोजन सेवाएं, कार्यकारी अनुसंधान सेवाओं से भिन्न
404		998513	संविदा कर्मचारिवृन्द सेवाएं
405		998414	स्थायी कर्मचारिवृन्द सेवाएं
406		998515	दीर्घकालिक कर्मचारिवृन्द (वेतन चिट्ठा बनाना) सेवाएं
407		998516	स्थायी नियोजन सेवाओं में अस्थायी कर्मचारिवृन्द
408		998517	सह-नियोजन कर्मचारिवृन्द सेवाएं
409		998519	अन्य नियोजन और श्रम प्रदाय सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
410	समूह 99852		अन्वेषण और सुरक्षा सेवाएं
411		998521	अन्वेषण सेवाएं
412		998522	सुरक्षा परामर्श सेवाएं
413		998523	सुरक्षा प्रणाली सेवाएं
414		998524	बक्तरबंद कार सेवाएं
415		998525	गार्ड सेवाएं
416		998526	प्रहरी कुत्ते का प्रशिक्षण
417		998527	पॉलिग्राफ सेवाएं
418		998528	ऊंगलीछाप सेवाएं
419		998529	अन्य सुरक्षा सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
420	समूह 99853		सफाई सेवाएं
421		998531	विसंक्रमणकारी और उन्मूलनकारी सेवाएं
422		998532	खिड़की सफाई सेवाएं
423		998533	साधारण सफाई सेवाएं
424		998534	जलाशयों और तालाबों के लिए विशेषीकृत सफाई सेवाएं
425		998535	वस्तुओं या परिसरों (शल्य क्रिया कक्ष) का विसंक्रमण
426		998536	भट्टी और चिमनी सफाई सेवाएं
427		998537	सभी प्रकार के भवनों की बाह्य सफाई
428		998538	परिवहन उपस्कर की सफाई
429		998539	अन्य सफाई सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
430	समूह 99854		पैकेजिंग सेवाएं
431		998540	अन्य के लिए माल की पैकेजिंग सेवाएं
432		998541	पार्सल पैकिंग और उपहार वेष्टन

433		998542	सिक्का और करेंसी पैकिंग सेवाएं
434		998549	अन्य पैकेजिंग सेवाएं एन.ई.सी
435	समूह 99855		यात्रा व्यवस्था, टुअर ऑपरेटर और सम्बन्धित सेवाएं
436		998551	परिवहन के लिए आरक्षण सेवाएं
437		998552	आवास परिभ्रमण और पैकेज टुअर के लिए आरक्षण सेवाएं
438		998553	सम्मेलन केन्द्रों, कांग्रेस केन्द्रों और प्रदर्शनी हॉलों के लिए आरक्षण सेवाएं
439		998554	समारोह टिकटों, सिनेमा हॉलों, मनोरंजन तथा आमोद-प्रमोद सेवाओं के लिए आरक्षण सेवाएं और अन्य आरक्षण सेवाएं
440		998555	टुअर ऑपरेटर सेवाएं
441		998556	यात्री मार्गदर्शक
442		998557	पर्यटन संवर्धन और आगन्तुक सूचना सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
443		998559	अन्य यात्रा प्रबंध और सम्बन्धित सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
444	समूह 99859		अन्य सहायता सेवाएं
445		998591	प्रत्यय रिपोर्ट करना और रेटिंग सेवाएं
446		998592	संग्रहण अभिकरण सेवाएं
447		998593	टेलिफोन आधारित सहायता सेवाएं
448		998594	संयुक्त कार्यालय प्रशासनिक सेवाएं
449		998595	विशेषीकृत कार्यालय सहायता सेवाएं, जैसे सेवाओं का अनुलिपिकरण, मेल करना और दस्तावेज तैयार करना आदि
450		998596	समारोह, प्रदर्शनी, कन्वेंशन और व्यापार, जो संगठन और सहायता सेवाएं दर्शाता है
451		998597	भू-स्लाकृति देख-भाल और रख-रखाव सेवाएं
452		998598	अन्य सूचना सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
453		998599	अन्य सहायता सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
454	शीर्ष 9986		कृषि, आखेट, वानिकीकरण, मछली पकड़ना, खनन और यूटीलिटीज के लिए सहायक सेवाएं
455	समूह 99861		कृषि, आखेट, वानिकीकरण और मछली पकड़ना के लिए सहायक सेवाएं
456		998611	फसल उत्पादन के लिए सहायता सेवाएं
457		998612	पशुपालन सेवाएं
458		998613	आखेट के लिए सहायता सेवाएं
459		998614	वानिकीकरण और लट्ठा बनाना
460		998615	मछली पकड़ने के लिए सहायता सेवाएं
461		998619	कृषि, आखेट, वानिकीकरण और मछली पकड़ने के लिए अन्य सहायता सेवाएं

462	समूह 99862		खनन के लिए सहायता सेवाएं
463		998621	तेल और गैस निष्कर्षण के लिए सहायता सेवाएं
464		998622	अन्य खनन के लिए सहायता सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
465	समूह 99863		बिजली, गैस और जल वितरण के लिए सहायता सेवाएं
466		998631	बिजली, पारेषण और वितरण के लिए सहायता सेवाएं
467		998632	गैस वितरण के लिए सहायता सेवाएं
468		998633	जल वितरण के लिए सहायता सेवाएं
469		998634	भाप, गर्म जल और वातानुकूलन प्रदाय की वितरण सेवाओं के लिए सहायता सेवाएं
470	शीर्ष 9987		अनुरक्षण, मरम्मत और संस्थापन (सन्निर्माण के सिवाय) सेवाएं
471	समूह 99871		संविचित धातु उत्पादों, मशीनरों, उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
472		988711	संविचित धातु उत्पादों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
473		988712	कार्यालय और लेखा मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
474		998713	कम्प्यूटर और परिधीय उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
475		998714	परिवहन मशीनरी और उपस्कर की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
476		998715	विद्युत घरेलू साधित्र
477		998716	दूरसंचार उपस्करों और उपकरणों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
478		998717	वाणिज्यिक और औद्योगिक मशीनरी की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
479		998718	उत्थापकों और चल-सोपानों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
480		998719	अन्य मशीनरी और उपस्करों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
481	समूह 99872		अन्य माल की मरम्मत सेवाएं
482		998721	जूता और चमड़े के माल की मरम्मत सेवाएं
483		998722	घड़ियों, क्लॉकों और आभूषणों की मरम्मत सेवाएं
484		998723	कपड़े और घरेलू टेक्सटाइलों की मरम्मत सेवाएं
485		998724	फर्नीचर की मरम्मत सेवाएं
486		998725	साइकिलों की मरम्मत सेवाएं
487		998726	वाद्ययंत्रों की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं
488		998727	फोटोग्राफी, उपस्कर और कैमराओं के लिए मरम्मत सेवाएं
489		998729	अन्य माल की अनुरक्षण और मरम्मत सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
490	समूह 99873		संस्थापन सेवाएं (सन्निर्माण से भिन्न)

491		998731	मशीनरी उपस्कर के सिवाय, संविरचित धातु उत्पादों की संस्थापन सेवाएं
492		998732	औद्योगिक विनिर्माण और सेवा उद्योग मशीनरी तथा उपस्कर की संस्थापन सेवाएं
493		998733	कार्यालय लेखा मशीनरी और कम्प्यूटरों की संस्थापन सेवाएं
494		998734	रेडियो, टेलीविजन और संचार उपस्कर तथा उपकरणों की संस्थापन सेवाएं
495		998735	वृत्तिक चिकित्सा मशीनरी और उपस्कर तथा सुक्षमता तथा ऑप्टिकल यंत्रों की संस्थापन सेवाएं
496		998736	विद्युत मशीनरी और उपकरण की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
497		998739	अन्य माल की संस्थापन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
498	शीर्ष 9988		अन्य व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएं
499	समूह 99881		खाद्य, पेय और तम्बाकू विनिर्माण सेवाएं
500		998811	मांस प्रसंस्करण सेवाएं
501		998812	मछली प्रसंस्करण सेवाएं
502		998813	फल और वनस्पति प्रसंस्करण सेवाएं
503		998814	वनस्पति और पशु तेल तथा बसा विनिर्माण सेवाएं
504		998815	दुग्ध उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
505		998816	अन्य खाद्य उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
506		998817	निर्मित पशु चारा विनिर्माण सेवाएं
507		998818	पेय विनिर्माण सेवाएं
508		998819	तम्बाकू विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
509	समूह 99882		टेक्सटाइल, पहनने के परिधान और चमड़ा विनिर्माण सेवाएं
510		998821	टेक्सटाइल विनिर्माण सेवाएं
511		998822	पहनने के परिधान विनिर्माण सेवाएं
512		998823	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
513	समूह 99883		काष्ठ और कागज विनिर्माण सेवाएं
514		998831	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
515		998832	कागज उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
516	समूह 99884		पेट्रोलियम, रसायन और औषध-भेषजीय उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
517		998841	कोल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादन विनिर्माण सेवाएं
518		998842	रसायन उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
519		998843	औषध-भेषजीय उत्पाद सेवाएं

520	समूह 99885		रबर, प्लास्टिक और अन्य अध्वात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
521		998851	रबर और प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
522		998852	प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
523		998853	अन्य अध्वात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
524	समूह 99886		मूल धातु विनिर्माण सेवाएं
525		998860	मूल धातु विनिर्माण सेवाएं
526	समूह 99887		संविचित धातु उत्पाद, मशीनरी और उपस्कर विनिर्माण सेवाएं
527		998871	संरचनात्मक धातु उत्पाद, तालाब, जलाशय और भाप जनित्र विनिर्माण सेवाएं
528		998872	शस्त्र और गोला-बारूद विनिर्माण सेवाएं
529		998873	अन्य संविचित धातु उत्पाद विनिर्माण और धातु उपचार सेवाएं
530		998874	कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद विनिर्माण सेवाएं
531		998875	विद्युत उपस्कर विनिर्माण सेवाएं
532		998876	साधारण-प्रयोजन, मशीनरी विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
533		998877	विशेष-प्रयोजन मशीनरी विनिर्माण सेवाएं
534	समूह 99888		परिवहन उपस्कर विनिर्माण सेवाएं
535		998881	मोटरयान और ट्रेलर विनिर्माण सेवाएं
536		998882	अन्य परिवहन उपस्कर विनिर्माण सेवाएं
537	समूह 99889		अन्य विनिर्माण सेवाएं
538		998891	फर्नीचर विनिर्माण सेवाएं
539		998892	आभूषण विनिर्माण सेवाएं
540		998893	अनुकृति आभूषण विनिर्माण सेवाएं
541		998894	वाद्य यंत्र विनिर्माण सेवाएं
542		998895	खेल-कूद माल विनिर्माण सेवाएं
543		998896	गेम और टॉय विनिर्माण सेवाएं
544		998897	चिकित्सा और दंत तथा प्रदाय विनिर्माण सेवाएं
545		998898	अन्य विनिर्माण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
546	शीर्ष 9989		अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं
547	समूह 99891		प्रकाशन, मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं
548		998911	किसी फीस या संविदा आधार पर प्रकाशन
549		998912	किसी फीस या संविदा आधार पर अभिलिखित मीडिया की मुद्रण और प्रत्युत्पादन सेवाएं

550	समूह 99892		सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बेधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं
551		998920	सांचा, दबाई, स्टाम्प लगाना, बहिर्बेधन तथा सदृश प्लास्टिक विनिर्माण सेवाएं
552	समूह 99893		ढलाई, गढ़ाई, स्टाम्प लगाना और सदृश धातु विनिर्माण सेवाएं
553		998931	लोहा और इस्पात ढलाई सेवाएं
554		998932	गैर-लौहमय धातु ढलाई सेवाएं
555		998933	धातु-गढ़ाई, दबाई, स्टाम्प लगाना, रॉल बनाना तथा चूर्ण धात्विकी सेवाएं
556	समूह 99894		फीस या संविदा के आधार पर सामग्री वसूली (चक्रण:पुन) सेवाएं
557		998941	फीस या संविदा के आधार पर धातु अपशिष्ट और स्क्रेप वसूली सेवाएं (चक्रण:पुन)
558		998942	फीस या संविदा के आधार पर गैर धातु अपशिष्ट और स्क्रेप वसूली सेवाएं (चक्रण:पुन)
559	खंड 9		समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं और अन्य प्रकीर्ण सेवाएं
560	शीर्ष 9991		समग्र रूप में पूरे समुदाय के लिए प्रदान किया जाने वाला लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं ; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाएं
561	समूह 99911		सरकार की प्रशासनिक सेवाएं
562		999111	समग्र सरकारी लोक सेवाएं
563		999112	सामाजिक सुरक्षा सेवा को छोड़कर शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल, सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक सेवाओं के उपबंध से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
564		999113	कारबार के अधिक दक्ष संचालन से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
565		999119	सरकार जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं की अन्य प्रशासनिक सेवाएं
566	समूह 99912		समग्र रूप से समुदाय को उपलब्ध कराई जाने वाली लोक प्रशासनिक सेवाएं
567		999121	विदेश में विदेशी मामलों, राजनयिक और कांसुलर सेवाओं से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
568		999122	विदेशी आर्थिक सहायता से संबंधित सेवाएं
569		999123	विदेशी सैन्य सहायता से संबंधित सेवाएं
570		999124	सैन्य रक्षा सेवाएं
571		999125	सिविल रक्षा सेवाएं
572		999126	पुलिस और अग्नि सुरक्षा सेवाएं
573		999127	विधिक न्यायालयों से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं

574		999128	अपराधियों को निरुद्ध करने या पुनर्वास से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
575		999129	अन्य लोक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी मामलों जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं से संबंधित लोक प्रशासनिक सेवाएं
576	समूह 99913		अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
577		999131	रुग्णता, मातृत्व या अस्थायी निश्चिन्ता फायदा स्कीमों से : संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
578		999132	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारी पेंशन स्कीमों, वृद्धावस्था निश्चिन्ता या उत्तरजीवी फायदा स्कीम से:संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
579		999133	बेरोजगारी प्रतिकर फायदा स्कीम से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
580		999134	कुटुंब और बालक भत्ता कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक सेवाएं
581	शीर्ष 9992		शिक्षा सेवाएं
582	समूह 99921		पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेवाएं
583		999210	पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेवाएं
584	समूह 99922		प्राथमिक शिक्षा सेवाएं
585		999220	प्राथमिक शिक्षा सेवाएं
586	समूह 99923		माध्यमिक शिक्षा सेवाएं
587		999231	माध्यमिक शिक्षा सेवाएं, सामान्य
588		999232	माध्यमिक शिक्षा सेवाएं, तकनीकी और व्यावसायिक
589	समूह 99924		उच्चतर शिक्षा सेवाएं
590		999241	उच्चतर शिक्षा सेवाएं, सामान्य
591		999242	उच्चतर शिक्षा सेवाएं, तकनीकी
592		999243	उच्चतर शिक्षा सेवाएं, व्यावसायिक
593		999249	अन्य उच्चतर शिक्षा सेवाएं
594	समूह 99925		विशेषीकृत शिक्षा सेवाएं
595		999259	विशेषीकृत शिक्षा सेवाएं
596	समूह 99929		अन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण सेवाएं और शैक्षणिक सहायता सेवाएं
597		999291	सांस्कृतिक शिक्षा सेवाएं
598		999292	खेल और मनोरंजन शिक्षा सेवाएं
599		999293	वाणिज्यिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं
600		999294	अन्य शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
601		999295	सेवाएं, जिनमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा का संचालन अंतर्बलित है
602		999299	अन्य शैक्षिक समर्थन सेवाएं

603	शीर्ष 9993		मानव स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल सेवाएं
604	समूह 99931		मानव स्वास्थ्य सेवाएं
605		999311	अंतरोगी सेवाएं:
606		999312	चिकित्सा और दंत सेवाएं
607		999313	शिशु जन्म और संबंधित सेवाएं
608		999314	नर्सिंग और फिजियोथेरेप्यूटिक सेवाएं
609		999315	एम्बुलेंस सेवाएं
610		999316	चिकित्सा प्रयोगशाला और नैदानिक इमेजिंग सेवाएं-
611		999317	रक्त, शुक्राणु और अंग बैंक सेवाएं
612		999319	अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं, जिसके अंतर्गत होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, नेचरोपैथी, एक्ज्यूपंकचर आदि हैं
613	समूह 99932		वृद्ध और निखभाल सेवाएंशक्त के लिए आवासीय दे:
614		999321	अस्पतालों से भिन्न आवासीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
615		999322	वृद्ध और निशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं:
616	समूह 99933		आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
617		999331	मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रुग्णता या पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित बालकों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
618		999332	बालकों के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
619		999333	मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य रुग्णता या पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित व्यस्कों के लिए आवासीय देखभाल सेवाएं
620		999334	वयस्कों के लिए आवास सहित अन्य सामाजिक सेवाएं
621	समूह 99934		वृद्ध और निशक्त के लिए आवास के बिना सामाजिक सेवाएं:
622		999341	व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं
623		999349	वृद्धों और नि शक्त:जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं के लिए आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
624	समूह 99935		आवास के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
625		999351	बालक डेकेयर सेवाएं-
626		999352	बालकों से संबंधित मार्गदर्शन और काउंसलिंग सेवाएं जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं
627		999353	आवास के बिना कल्याण सेवाएं
628		999359	आवास जो अन्यएत्र वर्गीकृत नहीं हैं के बिना अन्य सामाजिक सेवाएं
629	शीर्ष 9994		मल और अपशिष्ट संग्रहण, उपचार और निपटान तथा अन्य पर्यावरण संरक्षण सेवाएं
630	समूह 99941		मल, मल उपचार और सेप्टिक टैंक सफाई सेवा
631		999411	मल और मल उपचार सेवाएं

632		999412	सेप्टिक टैंक को खाली करना और साफ करना सेवा
633	समूह 99942		अपशिष्ट संग्रहण सेवाएं
634		999421	परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहण सेवा
635		999422	गैरपरिसंकटमय पुनचक्रणीय पदार्थ संग्रहण सेवा-
636		999423	सामान्य अपशिष्ट संग्रहण सेवा, आवासीय
637		999424	सामान्य अपशिष्ट संग्रहण सेवा, अन्य जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
638	समूह 99943		अपशिष्ट उपचार और निपटान सेवाएं
639		999431	अपशिष्ट तैयारी, इकट्ठा करना और भंडारण सेवाएं
640		999432	परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार और निपटान सेवाएं
641		999433	गैरऔर निपटान सेवाएं परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार-
642	समूह 99944		उपचारिक सेवाएं
643		999441	स्थल उपचारिक और स्वच्छता सेवाएं
644		999442	नियंत्रण करना, नियंत्रण और मानीटरी सेवाएं तथा अन्य स्थल उपचारिक सेवाएं
645		999443	भवन उपचारिक सेवाएं
646		999449	अन्य उपचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
647	समूह 99945		स्वच्छता और वैसी ही अन्य सेवाएं
648		999451	सफाई और बर्फ हटाना सेवा
649		999459	अन्य स्वच्छता सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
650	समूह 99949		अन्य
651		999490	अन्य पर्यावरणीय संरक्षण सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
652	शीर्ष 9995		सदस्य संगठनों की सेवाएं
653	समूह 99951		कारबार, नियोक्ताओं एवं वृत्तिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
654		999511	कारबार और नियोक्ता संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
655		999512	व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
656	समूह 99952		व्यवसाय संगमों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
657		999520	कारबार संगमों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
658	समूह 99959		अन्य सदस्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
659		999591	धार्मिक सेवाएं
660		999592	राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
661		999593	मानव अधिकार संगठनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
662		999594	सांस्कृतिक और मनोरंजन संघ

663		999595	पर्यावरण वकालत समूहों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सेवाएं
664		999596	युवा संघों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं
665		999597	अन्य नागरिक और सामाजिक संगठन
666		999598	गृह स्वामी संघ
667		999599	अन्य सदस्य संगठनों, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं, द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ
668	शीर्ष 9996		मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल सेवाएं
669	समूह 99961		श्रव्यदृश्य और संबंधित सेवाएं
670		999611	ध्वनि रिकॉर्डिंग सेवाएं
671		999612	मोशन पिक्चर, वीडियोटैप, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम तैयार करना सेवा
672		999613	पञ्चप्रोडक्शन श्रव्यदृश्य सेवाएं-
673		999614	मोशन पिक्चर, वीडियोटैप और टेलीविजन कार्यक्रम वितरण सेवाएं
674		999615	मोशन पिक्चर प्रक्षेपण सेवाएं
675	समूह 99962		प्रदर्शन कला और अन्य लाइव मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुति और संवर्धन सेवाएं
676		999621	प्रदर्शन कला समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं
677		999622	प्रदर्शन कला समारोह प्रोडक्शन और प्रस्तुतिकरण सेवाएं
678		999623	प्रदर्शन कला सुविधा प्रचालन सेवाएं
679		999629	अन्य प्रदर्शन कला और लाइव मनोरंजन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
680	समूह 99963		प्रदर्शन और अन्य कलाकारों की सेवाएं
681		999631	प्रदर्शन कलाकारों, जिसके अंतर्गत अभिनेता, पाठक, संगीतकार, गायक, नर्तक, टीवी व्यक्तित्व, स्वतंत्र मॉडल आदि हैं, की सेवाएं
682		999632	लेखकों, कम्पोजरों, वास्तुकारों और अन्य कलाकार, जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाकार नहीं है, की सेवाएं
683		999633	लेखकों, कम्पोजरों और अन्य कलाकारों, जिसके अंतर्गत प्रदर्शन कलाकार, चित्रकार और वास्तुकार नहीं है, की मूल रचनाएं
684	समूह 99964		संग्रहालय और परिरक्षण सेवाएं
685		999641	संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थलों और भवनों की परिरक्षण सेवाएं
686		999642	वानस्पतिक, प्राणी विज्ञान और प्रकृति संरक्षण सेवाएं

687	समूह 99965		खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं
688		999651	खेल और मनोरंजन खेल समारोह संवर्धन और संगठन सेवाएं
689		999652	खेल और मनोरंजन खेल सुविधा प्रचालन सेवाएं
690		999659	अन्य खेल और मनोरंजन खेल सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
691	समूह 99966		एथलीटों की सेवाएं और संबंधित सहायता सेवाएं
692		999661	एथलीटों की सेवाएं
693		999662	खेल और मनोरंजन से संबंधित सहायता सेवाएं
694	समूह 99969		अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं
695		999691	मनोरंजन पार्क और वैसी ही आकर्षण सेवाएं
696		999692	जुआ और सट्टेबाजी सेवाएं, जिसके अंतर्गत वैसी ही ऑनलाइन सेवाएं हैं
697		999693	सिक्का प्रचालित मनोरंजन मशीन सेवाएं-
698		999694	लॉटरी सेवाएं
699		999699	अन्य मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
700	शीर्ष 9997		अन्य सेवाएं
701	समूह 99971		धुलाई, सफाई और शुष्कन सेवाएं
702		999711	सिक्का प्रचालित लांड्री सेवाएं
703		999712	ड्राईक्लीनिंग सेवाएं, जिसके अंतर्गत फर उत्पाद स्वच्छता सेवाएं हैं
704		999713	अन्य कपड़ा स्वच्छता सेवाएं
705		999714	प्रेसिंग सेवाएं
706		999715	डाइंग और रंजक सेवाएं
707		999719	अन्य धुलाई, सफाई और डाइंग सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
708	समूह 99972		सौंदर्य और शारीरिक कल्याण सेवाएं
709		999721	हज्जाम और बारबर सेवाएं
710		999722	सौंदर्य उपचार /सौंदर्य)प्लास्टिक सर्जरी सहित(, मैनीक्योरिंग और पेंडिक्योरिंग सेवाएं
711		999723	स्वास्थ्य क्लब और फिटनेस सेंटर सहित शारीरिक कल्याण सेवाएं
712		999729	अन्य सौंदर्य उपचार सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
713	समूह 99973		दाह संस्कार ,अंतिम संस्कार, करने की सेवाएं
714		999731	कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार सेवाएं
715		999732	उपक्रम सेवाएं
716	समूह 99979		अन्य विविध सेवाएं

717		999791	किसी भी घटना के वाणिज्यिक उपयोग या दोहन से संबंधित सेवाएं
718		999792	कोई कार्य करने के लिए सहमत
719		999793	कोई कार्य न करने के लिए सहमत
720		999794	किसी कार्य को सहन करने के लिए सहमत
721		999795	व्यक्तियों द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों अनुष्ठानों का /संचालन
722		999799	अन्य सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं
723	शीर्ष 9998		घरेलू सेवाएं
724	समूह 99980		घरेलू सेवाएं
725		999800	घरेलू सेवाएं दोनों अंशकालिक और पूर्णकालिक
726	शीर्ष 9999		बाह्य संगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं
727	समूह 99990		बाह्य संगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं
728		999900	बाह्य संगठनों और निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2017

No. 11/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies that the State tax, on the intra-State supply of services of description as specified in column (3) of the Table below, falling under Chapter, Section or Heading of scheme of classification of services as specified in column (2), shall be levied at the rate as specified in the corresponding entry in column (4), subject to the conditions as specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table:-

Table

Sl No.	Chapter, Section or Heading	Description of Service	Rate (per cent.)	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chapter 99	All Services		
2	Section 5	Construction Services		
3	Heading 9954 (Construction services)	(i) Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been	9	-

		received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. (Provisions of paragraph 2 of this notification shall apply for valuation of this service)		
		(ii) composite supply of works contract as defined in clause 119 of section 2 of Delhi Goods and Services Tax Act, 2017.	9	-
		(iii) construction services other than (i) and (ii) above.	9	-
4	Section 6	Distributive Trade Services; Accommodation, Food and Beverage Service; Transport Services; Gas and Electricity Distribution Services		
5	Heading 9961	Services in wholesale trade. <i>Explanation</i> -This service does not include sale or purchase of goods but includes: – Services of commission agents, commodity brokers, and auctioneers and all other traders who negotiate whole sale commercial transactions between buyers and sellers, for a fee or commission' – Services of electronic whole sale agents and brokers, – Services of whole sale auctioning houses.	9	-
6	Heading 9962	Services in retail trade. <i>Explanation</i> - This service does not include sale or purchase of goods	9	-
7	Heading 9963 (Accommodation, food and beverage services)	(i) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, neither having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year nor having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	6	-
		(ii) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or	6	

		other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of one thousand rupees and above but less than two thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		-
		(iii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having licence or permit or by whatever name called to serve alcoholic liquor for human consumption.	9	-
		(iv) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink, where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, provided by a restaurant, eating joint including mess, canteen, having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year.	9	-
		(v) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever in outdoor catering wherein goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), as a part of such outdoor catering and such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.	9	-
		(vi) Accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or	9	-

		other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of two thousand five hundred rupees and above but less than seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.		
		(vii) Supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, including but not limited to food or any other article for human consumption or any drink (whether or not alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, in a premises (including hotel, convention center, club, pandal, shamiana or any other place, specially arranged for organising a function) together with renting of such premises.	9	-
		(viii) Accommodation in hotels including five star hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes having declared tariff of a unit of accommodation of seven thousand and five hundred rupees and above per unit per day or equivalent. <i>Explanation.-</i> “declared tariff ” includes charges for all amenities provided in the unit of accommodation (given on rent for stay) like furniture, air conditioner, refrigerators or any other amenities, but without excluding any discount offered on the published charges for such unit.	14	-
		(ix) Accommodation, food and beverage services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) above.	9	-
8	Heading 9964	(i) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by	2.5	Provided that credit

	(Passenger transport services)	rail in first class or air conditioned coach.		of input tax charged in respect of goods used in supplying the service is not utilised for paying central tax or integrated tax on the supply of the service
		(ii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings by- (a) air conditioned contract carriage other than motorcab; (b) air conditioned stage carriage; (c) radio taxi. <i>Explanation.-</i> (a) "contract carriage" has the meaning assigned to it in clause (7) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); (b) "stage carriage" has the meaning assigned to it in clause (40) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) ; (c) "radio taxi" means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS).	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iii) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by air in economy class.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iv) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by	2.5	Provided that credit

		air, embarking from or terminating in a Regional Connectivity Scheme Airport, as notified by the Ministry of Civil Aviation.		of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(v) Transport of passengers by air, with or without accompanied belongings, in other than economy class.	6	-
		(vi) Transport of passengers by motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(vii) Passenger transport services other than (i), (ii) (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-
9	Heading 9965 (Goods transport services)	(i) Transport of goods by rail (other than services specified at item no. (iv)).	2.5	Provided that credit of input tax charged in respect of goods in supplying the service is not utilised for paying central tax or integrated tax on the supply of the service
		(ii) Transport of goods in a vessel.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on

				ships, vessels including bulk carriers and tankers) used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iii) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including used household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	6	-
		(v) Goods transport services other than (i), (ii), (iii) and (iv) above.	9	-
10	Heading 9966 (Rental services of transport vehicles)	(i) Renting of motorcab where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) above.	9	-
11	Heading 9967 (Supporting services in	(i) Services of goods transport agency (GTA) in relation to transportation of goods (including	2.5	Provided that credit of input tax

	transport)	used household goods for personal use). <i>Explanation.-</i> “goods transport agency” means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.		charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Supporting services in transport other than (i) above.	9	-
12	Heading 9968	Postal and courier services.	9	-
13	Heading 9969	Electricity, gas, water and other distribution services.	9	-
14	Section 7	Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services.		
15	Heading 9971 (Financial and related services)	(i) Services provided by a foreman of a chit fund in relation to chit. <i>Explanation.-</i> (a) "chit" means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, kuri, or by whatever name by or under which a person enters into an agreement with a specified number of persons that every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead) by way of periodical instalments over a definite period and that each subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to a prize amount; (b) “foreman of a chit fund” shall have the same meaning as is assigned to the expression “foreman” in clause (j) of section 2 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982).	6	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(ii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of state tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iii) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof.	Same rate of state tax as on supply of like goods involving	-

			transfer of title in goods	
		(iv) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Delhi Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) “operator” means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) “scheduled air transport service” means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) “scheduled air cargo service” means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, not open to use by passengers.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(v) Financial and related services other than (i), (ii), (iii), and (iv) above.	9	-
16	Heading 9972	Real estate services.	9	-
17	Heading 9973 (Leasing or rental services, with or without operator)	(i) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software.	6	-
		(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right in respect of Information Technology software. [Please refer to <i>Explanation</i> no. (v)]	9	-
		(iii) Transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.	Same rate of state tax as on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
		(iv) Any transfer of right in goods or of undivided share in goods without	Same rate of state tax as on	-

		the transfer of title thereof.	supply of like goods involving transfer of title in goods	
		(v) Leasing of aircrafts by an operator for operating scheduled air transport service or scheduled air cargo service by way of transaction covered by clause (f) paragraph 5 of Schedule II of the Delhi Goods and Services Act, 2017. <i>Explanation.-</i> (a) "operator" means a person, organisation or enterprise engaged in or offering to engage in aircraft operations; (b) "scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, each flight being open to use by members of the public; (c) "scheduled air cargo service" means air transportation of cargo or mail on a scheduled basis according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognisable systematic series, not open to use by passengers.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)]
		(vi) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods	-
18	Section 8	Business and Production Services		
19	Heading 9981	Research and development services.	9	-
20	Heading 9982	Legal and accounting services.	9	-
21	Heading 9983 (Other professional, technical and business services)	(i) Selling of space for advertisement in print media. (ii) Other professional, technical and business services other than (i) above.	2.5	-
			9	-
22	Heading 9984	Telecommunications, broadcasting and information supply services.	9	-
23	Heading 9985 (Support services)	(i) Supply of tour operators services. <i>Explanation.-</i> "tour operator" means any person engaged in the business of planning, scheduling, organizing, arranging tours (which may include	2.5	1. Provided that credit of input tax charged on goods and

		arrangements for accommodation, sightseeing or other similar services) by any mode of transport, and includes any person engaged in the business of operating tours.		services used in supplying the service has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)] 2. The bill issued for supply of this service indicates that it is inclusive of charges of accommodation and transportation required for such a tour and the amount charged in the bill is the gross amount charged for such a tour including the charges of accommodation and transportation required for such a tour.
		(ii) Support services other than (i) above	9	-
24	Heading 9986	(i) Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry. <i>Explanation.</i> – “Support services to agriculture, forestry, fishing, animal husbandry” mean - (i) Services relating to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce by way of— (a) agricultural operations directly related to production of	Nil	-

		any agricultural produce including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing; (b) supply of farm labour; (c) processes carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market; (d) renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use; (e) loading, unloading, packing, storage or warehousing of agricultural produce; (f) agricultural extension services; (g) services by any Agricultural Produce Marketing Committee or Board or services provided by a commission agent for sale or purchase of agricultural produce. (ii) Services by way of pre-conditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing, labelling of fruits and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables. (iii) Carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products or agricultural produce.		
		(ii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution.	9	-
25	Heading 9987	Maintenance, repair and installation (except construction) services.	9	-
26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by	(i) Services by way of job work in relation to- (a) Printing of newspapers; (b) Textile yarns (other than of	2.5	-

	others)	man-made fibres) and textile fabrics; (c) Cut and polished diamonds; precious and semi-precious stones; or plain and studded jewellery of gold and other precious metals, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (d) Printing of books (including Braille books), journals and periodicals; (e) Processing of hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975). <i>Explanation.-</i> “man made fibres” means staple fibres and filaments of organic polymers produced by manufacturing processes either,- (a) by polymerisation of organic monomers to produce polymers such as polyamides, polyesters, polyolefins or polyurethanes, or by chemical modification of polymers produced by this process [for example, poly(vinyl alcohol) prepared by the hydrolysis of poly(vinyl acetate)]; or (b) by dissolution or chemical treatment of natural organic polymers (for example, cellulose) to produce polymers such as cuprammonium rayon (cupro) or viscose rayon, or by chemical modification of natural organic polymers (for example, cellulose, casein and other proteins, or alginic acid), to produce polymers such as cellulose acetate or alginates.		
		(ii) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i) above.	9	-
27	Heading 9989	Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services.	9	-
28	Section 9	Community, Social and Personal Services and other miscellaneous services		

29	Heading 9991	Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services.	9	-
30	Heading 9992	Education services.	9	-
31	Heading 9993	Human health and social care services.	9	-
32	Heading 9994	Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services.	9	-
33	Heading 9995	Services of membership organisations.	9	-
34	Heading 9996 (Recreational, cultural and sporting services)	(i) Services by way of admission or access to circus, Indian classical dance including folk dance, theatrical performance, drama.	9	-
		(ii) Services by way of admission exhibition of cinematograph films where price of admission ticket is one hundred rupees or less.	9	-
		(iii) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting, casinos, race-course, ballet, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	-
		(iv) Services provided by a race club by way of totalisator or a license to bookmaker in such club.	14	-
		(v) Gambling.	14	-
		(vi) Recreational, cultural and sporting services other than (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above.	9	-
35	Heading 9997	Other services (washing, cleaning and dyeing services; beauty and physical well-being services; and other miscellaneous services including services nowhere else classified).	9	-
36	Heading 9998	Domestic services.	9	-
37	Heading 9999	Services provided by extraterritorial organisations and bodies.	9	-

2. In case of supply of service specified in column (3) of the entry at item (i) against serial no. 3 of the Table above, involving transfer of property in land or undivided share of land, as the case may be, the value of supply of service and goods portion in such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation .- For the purposes of paragraph 2, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be.

3. Value of supply of lottery shall be 100/112 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery run by State Government and 100/128 of the face value or the price notified in the Official Gazette by the organising State, whichever is higher, in case of lottery authorised by State Government.

4. *Explanation.*- For the purposes of this notification,-

(i) Goods includes capital goods.

(ii) Reference to “Chapter”, “Section” or “Heading”, wherever they occur, unless the context otherwise requires, shall mean respectively as “Chapter”, “Section” and “Heading” in the annexed scheme of classification of services (Annexure).

(iii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of heading 9988.

(iv) Wherever a rate has been prescribed in this notification subject to the condition that credit of input tax charged on goods or services used in supplying the service has not been taken, it shall mean that,-

(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such service has not been taken; and

(b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such service and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such service is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder.

(v) “information technology software” means any representation of instructions, data, sound or image, including source code and object code, recorded in a machine readable form, and capable of being manipulated or providing interactivity to a user, by means of a computer or an automatic data processing machine or any other device or equipment.

(vi) “agricultural extension” means application of scientific research and knowledge to agricultural practices through farmer education or training.

(vii) “agricultural produce” means any produce out of cultivation of plants and rearing of all life forms of animals, except the rearing of horses, for food, fibre, fuel, raw material or other similar products, on which either no further processing is done or such processing is done as is usually done by a cultivator or producer which does not alter its essential characteristics but makes it marketable for primary market.

(viii) “Agricultural Produce Marketing Committee or Board” means any committee or board constituted under a State law for the time being in force for the purpose of regulating the marketing of agricultural produce.

5. This notification shall come into force with effect from 1st day of July, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
S. K. GUPTA, Dy. Secy. VI (Finance)

Annexure: Scheme of Classification of Services			
S.No.	Chapter, Section, Heading or Group	Service Code (Tariff)	Service Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chapter 99		All Services
2	Section 5		Construction Services

3	Heading 9954		Construction services
4	Group 99541		Construction services of buildings
5		995411	Construction services of single dwelling or multi dwelling or multi-storied residential buildings
6		995412	Construction services of other residential buildings such as old age homes, homeless shelters, hostels and the like
7		995413	Construction services of industrial buildings such as buildings used for production activities (used for assembly line activities), workshops, storage buildings and other similar industrial buildings
8		995414	Construction services of commercial buildings such as office buildings, exhibition and marriage halls, malls, hotels, restaurants, airports, rail or road terminals, parking garages, petrol and service stations, theatres and other similar buildings
9		995415	Construction services of other non-residential buildings such as educational institutions, hospitals, clinics including veterinary clinics, religious establishments, courts, prisons, museums and other similar buildings
10		995416	Construction services of other buildings nowhere else classified
11		995419	Services involving repair, alterations, additions, replacements, renovation, maintenance or remodeling of the buildings covered above
12	Group 99542		General construction services of civil engineering works
13		995421	General construction services of highways, streets, roads, railways and airfield runways, bridges and tunnels
14		995422	General construction services of harbours, waterways, dams, water mains and lines, irrigation and other waterworks
15		995423	General construction services of long-distance underground/ overland/ submarine pipelines, communication and electric power lines (cables); pumping stations and related works; transformer stations and related works
16		995424	General construction services of local water and sewage pipelines, electricity and communication cables and related works
17		995425	General construction services of mines and industrial plants
18		995426	General Construction services of Power Plants and its related infrastructure
19		995427	General construction services of outdoor sport and recreation facilities
20		995428	General construction services of other civil engineering works nowhere else classified
21		995429	Services involving repair, alterations, additions, replacements, renovation, maintenance or remodeling of the constructions covered above
22	Group 99543		Site preparation services
23		995431	Demolition services
24		995432	Site formation and clearance services including preparation services to make sites ready for subsequent construction work, test drilling and boring and core extraction, digging of trenches
25		995433	Excavating and earthmoving services
26		995434	Water well drilling services and septic system installation services
27		995435	Other site preparation services nowhere else classified
28		995439	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
29	Group 99544		Assembly and erection of prefabricated constructions
30		995441	Installation, assembly and erection services of prefabricated buildings

31		995442	Installation, assembly and erection services of other prefabricated structures and constructions
32		995443	Installation services of all types of street furniture (such as bus shelters, benches, telephone booths, public toilets, and the like)
33		995444	Other assembly and erection services nowhere else classified
34		995449	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
35	Group 99545		Special trade construction services
36		995451	Pile driving and foundation services
37		995452	Building framing and roof framing services
38		995453	Roofing and waterproofing services
39		995454	Concrete services
40		995455	Structural steel erection services
41		995456	Masonry services
42		995457	Scaffolding services
43		995458	Other special trade construction services nowhere else classified
44		995459	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the constructions covered above
45	Group 99546		Installation services
46		995461	Electrical installation services including Electrical wiring and fitting services, fire alarm installation services, burglar alarm system installation services
47		995462	Water plumbing and drain laying services
48		995463	Heating, ventilation and air conditioning equipment installation services
49		995464	Gas fitting installation services
50		995465	Insulation services
51		995466	Lift and escalator installation services
52		995468	Other installation services nowhere else classified
53		995469	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the installations covered above
54	Group 99547		Building completion and finishing services
55		995471	Glazing services
56		995472	Plastering services
57		995473	Painting services
58		995474	Floor and wall tiling services
59		995475	Other floor laying, wall covering and wall papering services
60		995476	Joinery and carpentry services
61		995477	Fencing and railing services
62		995478	Other building completion and finishing services nowhere else classified
63		995479	Services involving repair, alterations, additions, replacements, maintenance of the completion/finishing works covered above
64	Section 6		Distributive Trade Services ; Accommodation, Food and Beverage Service; Transport Services; Gas and Electricity Distribution Services
65	Heading 9961		Services in wholesale trade
66	Group 99611		

67		996111	Services provided for a fee or commission or on contract basis on wholesale trade
68	Heading 9962		Services in retail trade
69	Group 99621		
70		996211	Services provided for a fee or commission or on contract basis on retail trade
71	Heading 9963		Accommodation, food and beverage services
72	Group 99631		Accommodation services
73		996311	Room or unit accommodation services provided by Hotels, Inn, Guest House, Club and the like
74		996312	Camp site services
75		996313	Recreational and vacation camp services
76	Group 99632		Other accommodation services
77		996321	Room or unit accommodation services for students in student residences
78		996322	Room or unit accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest and the like
79		996329	Other room or unit accommodation services nowhere else classified
80	Group 99633		Food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages serving services
81		996331	Services provided by restaurants, cafes and similar eating facilities including takeaway services, room services and door delivery of food
82		996332	Services provided by Hotels, Inn, Guest House, Club and the like including room services, takeaway services and door delivery of food
83		996333	Services provided in canteen and other similar establishments
84		996334	Catering Services in exhibition halls, events, marriage halls and other outdoor/indoor functions
85		996335	Catering services in trains, flights and the like
86		996336	Preparation or supply services of food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages to airlines and other transportation operators
87		996337	Other contract food services
88		996339	Other food, edible preparations, alcoholic and non-alcoholic beverages serving services nowhere else classified
89	Heading 9964		Passenger transport services
90	Group 99641		Local transport and sightseeing transportation services of passengers
91		996411	Local land transport services of passengers by railways, metro, monorail, bus, tramway, autos, three wheelers, scooters and other motor vehicles
92		996412	Taxi services including radio taxi and other similar services
93		996413	Non-scheduled local bus and coach charter services
94		996414	Other land transportation services of passengers
95		996415	Local water transport services of passengers by ferries, cruises and the like
96		996416	Sightseeing transportation services by rail, land, water and air
97		996419	Other local transportation services of passengers nowhere else classified
98	Group 99642		Long-distance transport services of passengers
99		996421	Long-distance transport services of passengers through rail network by railways, metro and the like

100		996422	Long-distance transport services of passengers through road by bus, car, non-scheduled long distance bus and coach services, stage carriage and the like
101		996423	Taxi services including radio taxi and other similar services
102		996424	Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of passengers by Ferries, Cruise Ships and the like
103		996425	Domestic/ international scheduled air transport services of passengers
104		996426	Domestic/ international non-scheduled air transport services of passengers
105		996427	Space transport services of passengers
106		996429	Other long-distance transportation services of passengers nowhere else classified
107	Heading 9965		Goods Transport Services
108	Group 99651		Land transport services of Goods
109		996511	Road transport services of Goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, containers and the like by refrigerator vehicles, trucks, trailers, man or animal drawn vehicles or any other vehicles
110		996512	Railway transport services of Goods including letters, parcels, live animals, household and office furniture, intermodal containers, bulk cargo and the like
111		996513	Transport services of petroleum and natural gas, water, sewerage and other goods via pipeline
112		996519	Other land transport services of goods nowhere else classified
113	Group 99652		Water transport services of goods
114		996521	Coastal and transoceanic (overseas) water transport services of goods by refrigerator vessels, tankers, bulk cargo vessels, container ships and the like
115		996522	Inland water transport services of goods by refrigerator vessels, tankers and other vessels
116	Group 99653		Air and space transport services of goods
117		996531	Air transport services of letters and parcels and other goods
118		996532	Space transport services of freight
119	Heading 9966		Rental services of transport vehicles with or without operators
120	Group 99660		Rental services of transport vehicles with or without operators
121		996601	Rental services of road vehicles including buses, coaches, cars, trucks and other motor vehicles, with or without operator
122		996602	Rental services of water vessels including passenger vessels, freight vessels and the like with or without operator
123		996603	Rental services of aircraft including passenger aircrafts, freight aircrafts and the like with or without operator
124		996609	Rental services of other transport vehicles nowhere else classified with or without operator
125	Heading 9967		Supporting services in transport
126	Group 99671		Cargo handling services
127		996711	Container handling services
128		996712	Customs house agent services
129		996713	Clearing and forwarding services
130		996719	Other cargo and baggage handling services
131	Group 99672		Storage and warehousing services

132		996721	Refrigerated storage services
133		996722	Bulk liquid or gas storage services
134		996729	Other storage and warehousing services
135	Group 99673		Supporting services for railway transport
136		996731	Railway pushing or towing services
137		996739	Other supporting services for railway transport nowhere else classified
138	Group 99674		Supporting services for road transport
139		996741	Bus station services
140		996742	Operation services of national highways, state highways, expressways, roads and streets; bridges and tunnel operation services
141		996743	Parking lot services
142		996744	Towing services for commercial and private vehicles
143		996749	Other supporting services for road transport nowhere else classified
144	Group 99675		Supporting services for water transport (coastal, transoceanic and inland waterways)
145		996751	Port and waterway operation services (excluding cargo handling) such as operation services of ports, docks, light houses, light ships and the like
146		996752	Pilotage and berthing services
147		996753	Vessel salvage and refloating services
148		996759	Other supporting services for water transport nowhere else classified
149	Group 99676		Supporting services for air or space transport
150		996761	Airport operation services (excluding cargo handling)
151		996762	Air traffic control services
152		996763	Other supporting services for air transport
153		996764	Supporting services for space transport
154	Group 99679		Other supporting transport services
155		996791	Goods transport agency services for road transport
156		996792	Goods transport agency services for other modes of transport
157		996793	Other goods transport services
158		996799	Other supporting transport services nowhere else classified
159	Heading 9968		Postal and courier services
160	Group 99681		Postal and courier services
161		996811	Postal services including post office counter services, mail box rental services
162		996812	Courier services
163		996813	Local delivery services
164		996819	Other Delivery Services nowhere else classified
165	Heading 9969		Electricity, gas, water and other distribution services
166	Group 99691		Electricity and gas distribution services
167		996911	Electricity transmission services
168		996912	Electricity distribution services
169		996913	Gas distribution services
170	Group 99692		Water distribution and other services
171		996921	Water distribution services
172		996922	Services involving distribution of steam, hot water and air conditioning supply and the like
173		996929	Other similar services

174	Section 7		Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services
175	Heading 9971		Financial and related services
176	Group 99711		Financial services (except investment banking, insurance services and pension services)
177		997111	Central banking services
178		997112	Deposit services
179		997113	Credit-granting services including stand-by commitment, guarantees and securities
180		997114	Financial leasing services
181		997119	Other financial services (except investment banking, insurance services and pension services)
182	Group 99712		Investment banking services
183		997120	Investment banking services
184	Group 99713		Insurance and pension services (excluding reinsurance services)
185		997131	pension services
186		997132	Life insurance services (excluding reinsurance services)
187		997133	Accident and health insurance services
188		997134	Motor vehicle insurance services
189		997135	Marine, aviation, and other transport insurance services
190		997136	Freight insurance services and travel insurance services
191		997137	Other property insurance services
192		997139	Other non-life insurance services (excluding reinsurance services)
193	Group 99714		Reinsurance services
194		997141	Life reinsurance services
195		997142	Accident and health reinsurance services
196		997143	Motor vehicle reinsurance services
197		997144	Marine, aviation and other transport reinsurance services
198		997145	Freight reinsurance services
199		997146	Other property reinsurance services
200		997149	Other non-life reinsurance services
201	Group 99715		Services auxiliary to financial services (other than to insurance and pensions)
202		997151	Services related to investment banking such as mergers and acquisition services, corporate finance and venture capital services
203		997152	Brokerage and related securities and commodities services including commodity exchange services
204		997153	Portfolio management services except pension funds
205		997154	Trust and custody services
206		997155	Services related to the administration of financial markets
207		997156	Financial consultancy services
208		997157	Foreign exchange services
209		997158	Financial transactions processing and clearing house services
210		997159	Other services auxiliary to financial services
211	Group 99716		Services auxiliary to insurance and pensions
212		997161	Services auxiliary to insurance and pensions
213		997162	Insurance claims adjustment services
214		997163	Actuarial services

215		997164	Pension fund management services
216		997169	Other services auxiliary to insurance and pensions
217	Group 99717		Services of holding financial assets
218		997171	Services of holding equity of subsidiary companies
219		997172	Services of holding securities and other assets of trusts and funds and similar financial entities
220	Heading 9972		Real estate services
221	Group 99721		Real estate services involving owned or leased property
222		997211	Rental or leasing services involving own or leased residential property
223		997212	Rental or leasing services involving own or leased non-residential property
224		997213	Trade services of buildings
225		997214	Trade services of time-share properties
226		997215	Trade services of vacant and subdivided land
227	Group 99722		Real estate services on a fee or commission basis or on contract basis
228		997221	Property management services on a fee or commission basis or on contract basis
229		997222	Building sales on a fee or commission basis or on contract basis
230		997223	Land sales on a fee or commission basis or on contract basis
231		997224	Real estate appraisal services on a fee or commission basis or on contract basis
232	Heading 9973		Leasing or rental services with or without operator
233	Group 99731		Leasing or rental services concerning machinery and equipment with or without operator
234		997311	Leasing or rental services concerning transport equipments including containers, with or without operator
235		997312	Leasing or rental services concerning agricultural machinery and equipment with or without operator
236		997313	Leasing or rental services concerning construction machinery and equipment with or without operator
237		997314	Leasing or rental services concerning office machinery and equipment (except computers) with or without operator
238		997315	Leasing or rental services concerning computers with or without operators
239		997316	Leasing or rental services concerning telecommunications equipment with or without operator
240		997319	Leasing or rental services concerning other machinery and equipments with or without operator
241	Group 99732		Leasing or rental services concerning other goods
242		997321	Leasing or rental services concerning televisions, radios, video cassette recorders, projectors, audio systems and related equipment and accessories (home entertainment equipment)
243		997322	Leasing or rental services concerning video tapes and disks (home entertainment equipment)
244		997323	Leasing or rental services concerning furniture and other household appliances
245		997324	Leasing or rental services concerning pleasure and leisure equipment
246		997325	Leasing or rental services concerning household linen
247		997326	Leasing or rental services concerning textiles, clothing and footwear

248		997327	Leasing or rental services concerning do-it-yourself machinery and equipment
249		997329	Leasing or rental services concerning other goods
250	Group 99733		Licensing services for the right to use intellectual property and similar products
251		997331	Licensing services for the right to use computer software and databases
252		997332	Licensing services for the right to broadcast and show original films, sound recordings, radio and television programme and the like
253		997333	Licensing services for the right to reproduce original art works
254		997334	Licensing services for the right to reprint and copy manuscripts, books, journals and periodicals
255		997335	Licensing services for the right to use research and development products
256		997336	Licensing services for the right to use trademarks and franchises
257		997337	Licensing services for the right to use minerals including its exploration and evaluation
258		997338	Licensing services for right to use other natural resources including telecommunication spectrum
259		997339	Licensing services for the right to use other intellectual property products and other resources nowhere else classified
260	Section 8		Business and Production Services
261	Heading 9981		Research and development services
262	Group 99811		Research and experimental development services in natural sciences and engineering
263		998111	Research and experimental development services in natural sciences
264		998112	Research and experimental development services in engineering and technology
265		998113	Research and experimental development services in medical sciences and pharmacy
266		998114	Research and experimental development services in agricultural sciences
267	Group 99812		Research and experimental development services in social sciences and humanities
268		998121	Research and experimental development services in social sciences
269		998122	Research and experimental development services in humanities
270	Group 99813		Interdisciplinary research services
271		998130	Interdisciplinary research and experimental development services
272	Group 99814		Research and development originals
273		998141	Research and development originals in pharmaceuticals
274		998142	Research and development originals in agriculture
275		998143	Research and development originals in biotechnology
276		998144	Research and development originals in computer related sciences
277		998145	Research and development originals in other fields nowhere else classified
278	Heading 9982		Legal and accounting services
279	Group 99821		Legal services
280		998211	Legal advisory and representation services concerning criminal law
281		998212	Legal advisory and representation services concerning other fields of law

282		998213	Legal documentation and certification services concerning patents, copyrights and other intellectual property rights
283		998214	Legal documentation and certification services concerning other documents
284		998215	Arbitration and conciliation services
285		998216	Other legal services nowhere else classified
286	Group 99822		Accounting, auditing and bookkeeping services
287		998221	Financial auditing services
288		998222	Accounting and bookkeeping services
289		998223	Payroll services
290		998224	Other similar services nowhere else classified
291	Group 99823		Tax consultancy and preparation services
292		998231	Corporate tax consulting and preparation services
293		998232	Individual tax preparation and planning services
294	Group 99824		Insolvency and receivership services
295		998240	Insolvency and receivership services
296	Heading 9983		Other professional, technical and business services
297	Group 99831		Management consulting and management services; information technology services
298		998311	Management consulting and management services including financial, strategic, human resources, marketing, operations and supply chain management
299		998312	Business consulting services including public relations services
300		998313	Information technology consulting and support services
301		998314	Information technology design and development services
302		998315	Hosting and information technology infrastructure provisioning services
303		998316	Information technology infrastructure and network management services
304		998319	Other information technology services nowhere else classified
305	Group 99832		Architectural services, urban and land planning and landscape architectural services
306		998321	Architectural advisory services
307		998322	Architectural services for residential building projects
308		998323	Architectural services for non-residential building projects
309		998324	Historical restoration architectural services
310		998325	Urban planning services
311		998326	Rural land planning services
312		998327	Project site master planning services
313		998328	Landscape architectural services and advisory services
314	Group 99833		Engineering services
315		998331	Engineering advisory services
316		998332	Engineering services for building projects
317		998333	Engineering services for industrial and manufacturing projects
318		998334	Engineering services for transportation projects
319		998335	Engineering services for power projects
320		998336	Engineering services for telecommunications and broadcasting projects
321		998337	Engineering services for waste management projects (hazardous and non-hazardous), for water, sewerage and drainage projects

322		998338	Engineering services for other projects nowhere else classified
323		998339	Project management services for construction projects
324	Group 99834		Scientific and other technical services
325		998341	Geological and geophysical consulting services
326		998342	Subsurface surveying services
327		998343	Mineral exploration and evaluation
328		998344	Surface surveying and map-making services
329		998345	Weather forecasting and meteorological services
330		998346	Technical testing and analysis services
331		998347	Certification of ships, aircraft, dams, and the like
332		998348	Certification and authentication of works of art
333		998349	Other technical and scientific services nowhere else classified
334	Group 99835		Veterinary services
335		998351	Veterinary services for pet animals
336		998352	Veterinary services for livestock
337		998359	Other veterinary services nowhere else classified
338	Group 99836		Advertising services and provision of advertising space or time
339		998361	Advertising Services
340		998362	Purchase or sale of advertising space or time, on commission
341		998363	Sale of advertising space in print media (except on commission)
342		998364	Sale of television and radio advertising time
343		998365	Sale of internet advertising space
344		998366	Sale of other advertising space or time (except on commission)
345	Group 99837		Market research and public opinion polling services
346		998371	Market research services
347		998372	Public opinion polling services
348	Group 99838		Photography and videography and their processing services
349		998381	Portrait photography services
350		998382	Advertising and related photography services
351		998383	Event photography and event videography services
352		998384	Specialty photography services
353		998385	Restoration and retouching services of photography
354		998386	Photographic and videographic processing services
355		998387	Other photography and videography and their processing services nowhere else classified
356	Group 99839		Other professional, technical and business services
357		998391	Specialty design services including interior design, fashion design, industrial design and other specialty design services
358		998392	Design originals
359		998393	Scientific and technical consulting services
360		998394	Original compilations of facts or information
361		998395	Translation and interpretation services
362		998396	Trademarks and franchises
363		998397	Sponsorship services and brand promotion services
364		998399	Other professional, technical and business services nowhere else classified
365	Heading 9984		Telecommunications, broadcasting and information supply services

366	Group 99841		Telephony and other telecommunications services
367		998411	Carrier services
368		998412	Fixed telephony services
369		998413	Mobile telecommunications services
370		998414	Private network services
371		998415	Data transmission services
372		998419	Other telecommunications services including fax services, telex services nowhere else classified
373	Group 99842		Internet telecommunications services
374		998421	Internet backbone services
375		998422	Internet access services in wired and wireless mode
376		998423	Fax, telephony over the internet
377		998424	Audio conferencing and video conferencing over the internet
378		998429	Other internet telecommunications services nowhere else classified
379	Group 99843		On-line content services
380		998431	On-line text based information such as online books, newspapers, periodicals, directories and the like
381		998432	On-line audio content
382		998433	On-line video content
383		998434	Software downloads
384		998439	Other on-line contents nowhere else classified
385	Group 99844		News agency services
386		998441	News agency services to newspapers and periodicals
387		998442	Services of independent journalists and press photographers
388		998443	News agency services to audiovisual media
389	Group 99845		Library and archive services
390		998451	Library services
391		998452	Operation services of public archives including digital archives
392		998453	Operation services of historical archives including digital archives
393	Group 99846		Broadcasting, programming and programme distribution services
394		998461	Radio broadcast originals
395		998462	Television broadcast originals
396		998463	Radio channel programmes
397		998464	Television channel programmes
398		998465	Broadcasting services
399		998466	Home programme distribution services
400	Heading 9985		Support services
401	Group 99851		Employment services including personnel search, referral service and labour supply service
402		998511	Executive or retained personnel search services
403		998512	Permanent placement services, other than executive search services
404		998513	Contract staffing services
405		998514	Temporary staffing services
406		998515	Long-term staffing (pay rolling) services
407		998516	Temporary staffing-to-permanent placement services
408		998517	Co-employment staffing services
409		998519	Other employment and labour supply services nowhere else classified
410	Group 99852		Investigation and security services

411		998521	Investigation services
412		998522	Security consulting services
413		998523	Security systems services
414		998524	Armoured car services
415		998525	Guard services
416		998526	Training of guard dogs
417		998527	Polygraph services
418		998528	Fingerprinting services
419		998529	Other security services nowhere else classified
420	Group 99853		Cleaning services
421		998531	Disinfecting and exterminating services
422		998532	Window cleaning services
423		998533	General cleaning services
424		998534	Specialised cleaning services for reservoirs and tanks
425		998535	Sterilisation of objects or premises (operating rooms)
426		998536	Furnace and chimney cleaning services
427		998537	Exterior cleaning of buildings of all types
428		998538	Cleaning of transportation equipment
429		998539	Other cleaning services nowhere else classified
430	Group 99854		Packaging services
431		998540	Packaging services of goods for others
432		998541	Parcel packing and gift wrapping
433		998542	Coin and currency packing services
434		998549	Other packaging services nowhere else classified
435	Group 99855		Travel arrangement, tour operator and related services
436		998551	Reservation services for transportation
437		998552	Reservation services for accommodation, cruises and package tours
438		998553	Reservation services for convention centres, congress centres and exhibition halls
439		998554	Reservation services for event tickets, cinema halls, entertainment and recreational services and other reservation services
440		998555	Tour operator services
441		998556	Tourist guide services
442		998557	Tourism promotion and visitor information services
443		998559	Other travel arrangement and related services nowhere else classified
444	Group 99859		Other support services
445		998591	Credit reporting and rating services
446		998592	Collection agency services
447		998593	Telephone-based support services
448		998594	Combined office administrative services
449		998595	Specialised office support services such as duplicating services, mailing services, document preparation and the like
450		998596	Events, exhibitions, conventions and trade shows organisation and assistance services
451		998597	Landscape care and maintenance services
452		998598	Other information services nowhere else classified
453		998599	Other support services nowhere else classified

454	Heading 9986		Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities
455	Group 99861		Support services to agriculture, hunting, forestry and fishing
456		998611	Support services to crop production
457		998612	Animal husbandry services
458		998613	Support services to hunting
459		998614	Support services to forestry and logging
460		998615	Support services to fishing
461		998619	Other support services to agriculture, hunting, forestry and fishing
462	Group 99862		Support services to mining
463		998621	Support services to oil and gas extraction
464		998622	Support services to other mining nowhere else classified
465	Group 99863		Support services to electricity, gas and water distribution
466		998631	Support services to electricity transmission and distribution
467		998632	Support services to gas distribution
468		998633	Support services to water distribution
469		998634	Support services to distribution services of steam, hot water and air-conditioning supply
470	Heading 9987		Maintenance, repair and installation (except construction) services
471	Group 99871		Maintenance and repair services of fabricated metal products, machinery and equipment
472		998711	Maintenance and repair services of fabricated metal products, except machinery and equipment
473		998712	Maintenance and repair services of office and accounting machinery
474		998713	Maintenance and repair services of computers and peripheral equipment
475		998714	Maintenance and repair services of transport machinery and equipment
476		998715	Maintenance and repair services of electrical household appliances
477		998716	Maintenance and repair services of telecommunication equipments and apparatus
478		998717	Maintenance and repair services of commercial and industrial machinery
479		998718	Maintenance and repair services of elevators and escalators
480		998719	Maintenance and repair services of other machinery and equipments
481	Group 99872		Repair services of other goods
482		998721	Repair services of footwear and leather goods
483		998722	Repair services of watches, clocks and jewellery
484		998723	Repair services of garments and household textiles
485		998724	Repair services of furniture
486		998725	Repair services of bicycles
487		998726	Maintenance and repair services of musical instruments
488		998727	Repair services for photographic equipment and cameras
489		998729	Maintenance and repair services of other goods nowhere else classified
490	Group 99873		Installation services (other than construction)
491		998731	Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment
492		998732	Installation services of industrial, manufacturing and service industry machinery and equipment
493		998733	Installation services of office and accounting machinery and computers

494		998734	Installation services of radio, television and communications equipment and apparatus
495		998735	Installation services of professional medical machinery and equipment, and precision and optical instruments
496		998736	Installation services of electrical machinery and apparatus nowhere else classified
497		998739	Installation services of other goods nowhere else classified
498	Heading 9988		Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others
499	Group 99881		Food, beverage and tobacco manufacturing services
500		998811	Meat processing services
501		998812	Fish processing services
502		998813	Fruit and vegetables processing services
503		998814	Vegetable and animal oil and fat manufacturing services
504		998815	Dairy product manufacturing services
505		998816	Other food product manufacturing services
506		998817	Prepared animal feeds manufacturing services
507		998818	Beverage manufacturing services
508		998819	Tobacco manufacturing services nowhere else classified
509	Group 99882		Textile, wearing apparel and leather manufacturing services
510		998821	Textile manufacturing services
511		998822	Wearing apparel manufacturing services
512		998823	Leather and leather product manufacturing services
513	Group 99883		Wood and paper manufacturing services
514		998831	Wood and wood product manufacturing services
515		998832	Paper and paper product manufacturing services
516	Group 99884		Petroleum, chemical and pharmaceutical product manufacturing services
517		998841	Coke and refined petroleum product manufacturing services
518		998842	Chemical product manufacturing services
519		998843	Pharmaceutical product manufacturing services
520	Group 99885		Rubber, plastic and other non-metallic mineral product manufacturing service
521		998851	Rubber and plastic product manufacturing services
522		998852	Plastic product manufacturing services
523		998853	Other non-metallic mineral product manufacturing services
524	Group 99886		Basic metal manufacturing services
525		998860	Basic metal manufacturing services
526	Group 99887		Fabricated metal product, machinery and equipment manufacturing services
527		998871	Structural metal product, tank, reservoir and steam generator manufacturing services
528		998872	Weapon and ammunition manufacturing services
529		998873	Other fabricated metal product manufacturing and metal treatment services
530		998874	Computer, electronic and optical product manufacturing services
531		998875	Electrical equipment manufacturing services
532		998876	General-purpose machinery manufacturing services nowhere else classified
533		998877	Special-purpose machinery manufacturing services

534	Group 99888		Transport equipment manufacturing services
535		998881	Motor vehicle and trailer manufacturing services
536		998882	Other transport equipment manufacturing services
537	Group 99889		Other manufacturing services
538		998891	Furniture manufacturing services
539		998892	Jewellery manufacturing services
540		998893	Imitation jewellery manufacturing services
541		998894	Musical instrument manufacturing services
542		998895	Sports goods manufacturing services
543		998896	Game and toy manufacturing services
544		998897	Medical and dental instrument and supply manufacturing services
545		998898	Other manufacturing services nowhere else classified
546	Heading 9989		Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; materials recovery services
547	Group 99891		Publishing, printing and reproduction services
548		998911	Publishing, on a fee or contract basis
549		998912	Printing and reproduction services of recorded media, on a fee or contract basis
550	Group 99892		Moulding, pressing, stamping, extruding and similar plastic manufacturing services
551		998920	Moulding, pressing, stamping, extruding and similar plastic manufacturing services
552	Group 99893		Casting, forging, stamping and similar metal manufacturing services
553		998931	Iron and steel casting services
554		998932	Non-ferrous metal casting services
555		998933	Metal forging, pressing, stamping, roll forming and powder metallurgy services
556	Group 99894		Materials recovery (recycling) services, on a fee or contract basis
557		998941	Metal waste and scrap recovery (recycling) services, on a fee or contract basis
558		998942	Non-metal waste and scrap recovery (recycling) services, on a fee or contract basis
559	Section 9		Community, social and personal services and other miscellaneous services
560	Heading 9991		Public administration and other services provided to the community as a whole; compulsory social security services
561	Group 99911		Administrative services of the government
562		999111	Overall Government public services
563		999112	Public administrative services related to the provision of educational, health care, cultural and other social services, excluding social security service
564		999113	Public administrative services related to the more efficient operation of business
565		999119	Other administrative services of the government nowhere else classified
566	Group 99912		Public administrative services provided to the community as a whole
567		999121	Public administrative services related to External Affairs, Diplomatic and Consular services abroad
568		999122	Services related to foreign economic aid

569		999123	Services related to foreign military aid
570		999124	Military defence services
571		999125	Civil defence services
572		999126	Police and fire protection services
573		999127	Public administrative services related to law courts
574		999128	Administrative services related to the detention or rehabilitation of criminals
575		999129	Public administrative services related to other public order and safety affairs nowhere else classified
576	Group 99913		Administrative services related to compulsory social security schemes
577		999131	Administrative services related to sickness, maternity or temporary disablement benefit schemes
578		999132	Administrative services related to government employee pension schemes; old-age disability or survivors' benefit schemes, other than for government employees
579		999133	Administrative services related to unemployment compensation benefit schemes
580		999134	Administrative services related to family and child allowance programmes
581	Heading 9992		Education services
582	Group 99921		Pre-primary education services
583		999210	Pre-primary education services
584	Group 99922		Primary education services
585		999220	Primary education services
586	Group 99923		Secondary Education Services
587		999231	Secondary education services, general
588		999232	Secondary education services, technical and vocational
589	Group 99924		Higher education services
590		999241	Higher education services, general
591		999242	Higher education services, technical
592		999243	Higher education services, vocational
593		999249	Other higher education services
594	Group 99925		Specialised education services
595		999259	Specialised education services
596	Group 99929		Other education and training services and educational support services
597		999291	Cultural education services
598		999292	Sports and recreation education services
599		999293	Commercial training and coaching services
600		999294	Other education and training services nowhere else classified
601		999295	services involving conduct of examination for admission to educational institutions
602		999299	Other educational support services
603	Heading 9993		Human health and social care services
604	Group 99931		Human health services
605		999311	Inpatient services
606		999312	Medical and dental services
607		999313	Childbirth and related services

608		999314	Nursing and physiotherapeutic services
609		999315	Ambulance services
610		999316	Medical laboratory and diagnostic-imaging services
611		999317	Blood, sperm and organ bank services
612		999319	Other human health services including homeopathy, unani, ayurveda, naturopathy, acupuncture and the like
613	Group 99932		Residential care services for the elderly and disabled
614		999321	Residential health-care services other than by hospitals
615		999322	Residential care services for the elderly and persons with disabilities
616	Group 99933		Other social services with accommodation
617		999331	Residential care services for children suffering from mental retardation, mental health illnesses or substance abuse
618		999332	Other social services with accommodation for children
619		999333	Residential care services for adults suffering from mental retardation, mental health illnesses or substance abuse
620		999334	Other social services with accommodation for adults
621	Group 99934		Social services without accommodation for the elderly and disabled
622		999341	Vocational rehabilitation services
623		999349	Other social services without accommodation for the elderly and disabled nowhere else classified
624	Group 99935		Other social services without accommodation
625		999351	Child day-care services
626		999352	Guidance and counseling services nowhere else classified related to children
627		999353	Welfare services without accommodation
628		999359	Other social services without accommodation nowhere else classified
629	Heading 9994		Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services
630	Group 99941		Sewerage, sewage treatment and septic tank cleaning services
631		999411	Sewerage and sewage treatment services
632		999412	Septic tank emptying and cleaning services
633	Group 99942		Waste collection services
634		999421	Collection services of hazardous waste
635		999422	Collection services of non-hazardous recyclable materials
636		999423	General waste collection services, residential
637		999424	General waste collection services, other nowhere else classified
638	Group 99943		Waste treatment and disposal services
639		999431	Waste preparation, consolidation and storage services
640		999432	Hazardous waste treatment and disposal services
641		999433	Non-hazardous waste treatment and disposal services
642	Group 99944		Remediation services
643		999441	Site remediation and clean-up services
644		999442	Containment, control and monitoring services and other site remediation services
645		999443	Building remediation services
646		999449	Other remediation services nowhere else classified
647	Group 99945		Sanitation and similar services
648		999451	Sweeping and snow removal services
649		999459	Other sanitation services nowhere else classified

650	Group 99949		Others
651		999490	Other environmental protection services nowhere else classified
652	Heading 9995		Services of membership organisations
653	Group 99951		Services furnished by business, employers and professional organisations Services
654		999511	Services furnished by business and employers organisations
655		999512	Services furnished by professional organisations
656	Group 99952		Services furnished by trade unions
657		999520	Services furnished by trade unions
658	Group 99959		Services furnished by other membership organisations
659		999591	Religious services
660		999592	Services furnished by political organisations
661		999593	Services furnished by human rights organisations
662		999594	Cultural and recreational associations
663		999595	Services furnished by environmental advocacy groups
664		999596	Services provided by youth associations
665		999597	Other civic and social organisations
666		999598	Home owners associations
667		999599	Services provided by other membership organisations nowhere else classified
668	Heading 9996		Recreational, cultural and sporting services
669	Group 99961		Audiovisual and related services
670		999611	Sound recording services
671		999612	Motion picture, videotape, television and radio programme production services
672		999613	Audiovisual post-production services
673		999614	Motion picture, videotape and television programme distribution services
674		999615	Motion picture projection services
675	Group 99962		Performing arts and other live entertainment event presentation and promotion services
676		999621	Performing arts event promotion and organisation services
677		999622	Performing arts event production and presentation services
678		999623	Performing arts facility operation services
679		999629	Other performing arts and live entertainment services nowhere else classified
680	Group 99963		Services of performing and other artists
681		999631	Services of performing artists including actors, readers, musicians, singers, dancers, television personalities, independent models and the like
682		999632	Services of authors, composers, sculptors and other artists, except performing artists
683		999633	Original works of authors, composers and other artists except performing artists, painters and sculptors
684	Group 99964		Museum and preservation services
685		999641	Museum and preservation services of historical sites and buildings
686		999642	Botanical, zoological and nature reserve services
687	Group 99965		Sports and recreational sports services

688		999651	Sports and recreational sports event promotion and organisation services
689		999652	Sports and recreational sports facility operation services
690		999659	Other sports and recreational sports services nowhere else classified
691	Group 99966		Services of athletes and related support services
692		999661	Services of athletes
693		999662	Support services related to sports and recreation
694	Group 99969		Other amusement and recreational services
695		999691	Amusement park and similar attraction services
696		999692	Gambling and betting services including similar online services
697		999693	Coin-operated amusement machine services
698		999694	Lottery services
699		999699	Other recreation and amusement services nowhere else classified
700	Heading 9997		Other services
701	Group 99971		Washing, cleaning and dyeing services
702		999711	Coin-operated laundry services
703		999712	Dry-cleaning services (including fur product cleaning services)
704		999713	Other textile cleaning services
705		999714	Pressing services
706		999715	Dyeing and colouring services
707		999719	Other washing, cleaning and dyeing services nowhere else classified
708	Group 99972		Beauty and physical well-being services
709		999721	Hairdressing and barbers services
710		999722	Cosmetic treatment (including cosmetic or plastic surgery), manicuring and pedicuring services
711		999723	Physical well-being services including health club and fitness centre
712		999729	Other beauty treatment services nowhere else classified
713	Group 99973		Funeral, cremation and undertaking services
714		999731	Cemeteries and cremation services
715		999732	Undertaking services
716	Group 99979		Other miscellaneous services
717		999791	Services involving commercial use or exploitation of any event
718		999792	Agreeing to do an act
719		999793	Agreeing to refrain from doing an act
720		999794	Agreeing to tolerate an act
721		999795	Conduct of religious ceremonies or rituals by persons
722		999799	Other services nowhere else classified
723	Heading 9998		Domestic services
724	Group 99980		Domestic services
725		999800	Domestic services both part time and full time
726	Heading 9999		Services provided by extraterritorial organisations and bodies
727	Group 99990		Services provided by extraterritorial organisations and bodies
728		999900	Services provided by extraterritorial organisations and bodies